



## प्रस्ताविका.

“राग प्रवेश” इस पुस्तकके बनाने का मुख्य उद्देश यह है कि जिन को थोड़ा बहोत स्वर का और ताल का ज्ञान हुआ हो उन के लिये किसी राग के गीत पर किसम २ के तान आलाप तथा बोलतान लेने में सुगमता होवे इस लिये इस पुस्तक को प्रकाशित करना शुरु किया है. यह पुस्तक अनेक भागों में पूर्ण होगा. उन भागों की संख्या अभी नियत नहीं कर सक्ते हैं. इस के सब भाग यदि कंठ हो जावें तो लगभग प्रचार के राग रागिणियों का आलाप तान सहीत गाना सहज होगा. इस के नामसे ही प्रतीत होता है कि यह पुस्तक हर एक राग के विस्तार के क्रम का प्रकाशक है.

इस त्रयोदश भाग में केवल बरवा राग में एक गीत विलंबित तीनताल का प्रकाशित किया है और इस में “प्लावित, गद्गदित, मुद्गीत, अहात, आंदोलीत, कंपीत ” इत्यादि गमक लिखी हैं. इस लिये निवेदन है कि जिस किसी को गाना बजाना शीघ्रता से साध्य करना हो तो उस के लिये यह पुस्तक एक बहोत उपयोगी वस्तु होगी. परंतु समझने के लिये पहिले हमारे यहां की अकंठ रीति को (नोटेशन सिस्टम को) अच्छी रीति से समझना चाहिये:

इति शुभम् ।

भवदीय

विष्णु दिगंबर :

## गमकांची चिन्हे.

- १ प्राचीत १ २
- २ गदगदीत ——— —
- ३ सुद्रीत =====
- ४ अहात ७ सुर्छना
- ५ अंदोलीत ~
- ६ कंपीत \*

# राग बरवा.



इस रागमें दो गंधार और दो निषाद बाकी सब शुद्ध स्वर  
अतिक्रमल ग और नि के वास्ते निशाणी होगी.

विलंबित नीगताल.

तार	
मध्य	स ग ग गु मु प १ १ म प ध प म ग रि
मन्द्र	

क म नी या \* \* \* \* \* रे \* \* \*  
२ ३

तार	
मध्य	गु * ग म प मु * गु रि * गु १ रि
मन्द्र	नि ११

\* का हे को बां \* \* \* \* \* धे \* \* \*  
३



तार		
मध्य	सु१ सु५	१ सु म ५ ग रि सु
मन्त्र		नि

ती र ई . . . . .  
१ २

तार	
मध्य	सु११ सु ग म गु मु पु धु ५ नि ध्रु प ०१
मन्त्र	

भो य क मा . . . . . ब नी  
३ २

तार	
मध्य	१ गु गु म गु म पु ५ ग रि सु ०११ पु नि
मन्त्र	

जो ते हारी . . . . . नै न प ल न  
१ २ ३

तार	सु. सु.	
मध्य	नि णि नि णि	५नि धु पु. पुमु गु
मन्द्र		

क दो उ . . श र की . . .  
२

तार		
मध्य	रि गू . ५ गू गू गु मु पु धु मु पू . गू मु	
मन्द्र		

. . अ नी या . . . . . का हे  
२ ३

तार		
मध्य	धु मु पू ट ५गु ५गु रि ५गु ५रि	
मन्द्र		नि५५

'को' . . बा . . . . धे . . .  
३

तार	
मध्य	सू५ सु५५ सुगुगुसुगुसु रिगुगु५
मन्द्र	
ती र क म नी या . . . रे	
१ ३	

तार		
मध्य	सु गु गु प म गु सु रि गु सु	सू गु
मन्द्र		
क म नी . या . . . रे		
२ १		

तार	
मध्य	गु ध म गु सु रु गु सु . ५ ५ गु ५ गु
मन्द्र	
नी . या . . . रे	
३ क म	

तार	
मध्य	५गु ५गु रि सु रि गु सु • ५ गु • ५ गु म
मन्द्र	

नी या . . . . रे आ का है  
३ २

तार		
मध्य	पु सु ५गु रि ५गु ५रि	सु ५ सु ५
मन्द्र		नु

को बा . . . धे . ती र  
१

तार	
मध्य	सु ५गु ५गु ५गु • रि सु रि गु
मन्द्र	नि

अ रे क म नी . . . .  
३

तार	
मध्य	सु० ५ सुसुसु० सु
मन्द्र	धु नि नि धु नि
	या अ रे क म नी . . . . . ३

तार		
मध्य	सु० ५ रि रि रि	I
मन्द्र	पु पु	५नि धु पु I
	या अ रे क म नी . या . २ १	

तार	
मध्य	सु रि ५गु० रि सु रि मगु रि सु ५
मन्द्र	पु धु
	. . . . . रे . ३

तार	
मध्य	सृ गृ गृ गृ मृ • गु सुरि गु सु पृ मृ • गु
मन्द्र	

अ रे क म नी • • • • • या •  
३ २

तार		
मध्य	सुरि गु सृ • ५ गृ पृ	पृ पृ गृ पु धु
मन्द्र		

• • • रे अ रे क म नी • •  
१

तार	
मध्य	५ नि ध्रु पु गृ पृ सु पु ध्रु पु मृ गृ मृ ध्रु ध्रु
मन्द्र	

• • • या • • • • • रे • आ रे कृ  
२

तार	सु ५
मध्य	धु पु धु नि      ५नि ५नि • धु सु पु
मन्द्र	

म नी • • • • या • • •  
३

तार	
मध्य	धु • पु सु गु रि गु १ गु म पु सु ५ गु
मन्द्र	

• रे • • • • का हे कां वां •  
२

तार	
मध्य	रि ५ गु १ रि      सू • सु १ पू पु धू पू
मन्द्र	नि

• • • • ती र क म नी या  
१

तार	
मध्य	स ग रि ग १ ग स प स ५ ग रि ५ ग
मन्द्र	

• • • • का हे को वा • • • •  
२

तार	
मध्य	रि रि सु • सु १ ग प प ग स प
मन्द्र	नि

• धे • ती र क म नी था • •  
३

तार	
मध्य	ध ५ नि ध प ग स प स ५ ग रि ५ ग रि
मन्द्र	

• • • • का हे को वा • • • •  
२



तार		
मध्य	रि	सु १ सु ५ स ग ग गू मू • गु
मन्द्र	नि०	

धे • ती र क म नी या • •  
 १ २

तार		रिरिस <small>ॐ ॐ ॐ</small>
मध्य	सु पु • सु पु धु • पु धु ५ नि • धू	
मन्द्र		

• • • • •  
 ३

तार		
मध्य	५ नि धू प म ग रि गू १ गू मू पु मु ५ गु	
मन्द्र		

रे • • • • • का हे को वां •  
 २

तार		
मध्य	रि ऋगु श्रि	सृ ङ सु ऽ सु गृ ग मु
मन्द्र	नि	

. . धे . ती र क म नी या  
१ २

तार		सु सु
मध्य	सु गु रि गु मु पु धु ऽ नि धु पु धु	
मन्द्र		

. . . . . ३

तार		
मध्य	ऽ नि धु पु सु गु रि सु . ऽ ङ गु मू षु सु	
मन्द्र		

. . . . . रे का हे को वीं  
२ .

तार		
मध्य	५गु रि ५गु ५रि	सु ५सु ५गु ५गु ५गु
मन्द्र		नि

• • • धे • ती र क म  
१ २

तार	✕	
मध्य	पुपुपुसुगु रिगुसुपुधुपुसुगु • ५९	
मन्द्र		

नी या • • • • • रे • •  
३

तार		✕
मध्य	सुधुधुधुधुपुसुगु	गु सुपुधुनि
मन्द्र		

क म नी • • • • •  
२ १

तार	सु-१
मध्य	धु पु म गु ५५ ग म पु धु नि ५नि
मन्द्र	
रे . . . क म नी . . .	
२ ३	

तार	सु१
मध्य	धु ५नि धु म पु धु प म ग रि
मन्द्र	
. . या . . . रे . . .	
२	

तार	
मध्य	ग १ ग गु गु म पु धु ५नि १ पु धु
मन्द्र	
क म नी . . . या	
१	

तार	रि सु०१
मध्य	नि ऋण्णु सु गु ङ गू धु पु पु
मन्द्र	
. . . . . रे क म . नी २ ३	

तार	
मध्य	धु ऋण्णु पु धु ऎ सु पृ ऎ सु पु धु पु सु गु
मन्द्र	
. . . या . . . . . रे . २	

तार		सु
मध्य	रि गु ङ गू धु पु ऋण्णु धु	पृ धु पु सु
मन्द्र		
. . . क म . नी . या . . . रे . १ .		

तार	सु रि
मध्य	गू०५१ गू गू गु सु पु धु नि नि
मन्द्र	

क म नी . . . . .  
२

तार	सु
मध्य	धु यनि १ ध प म ग ग म प ध यनि
मन्द्र	

था . . . . .  
३

तार	स रि स
मध्य	ध प ध यनि यनि ध प म
मन्द्र	

रे . . . . .

तार	
मध्य	गु रि गु ॥ गु मृ पृ मु ५ गु रि ५ गु ९ रि
मंत्र	

• • • का हे को वा • • • वे  
२

तार	
मध्य	रि गु रि स रि ग रि स रि ग रि स
मंत्र	नि

• आ • • • • •  
१

तार	
मध्य	रि ग रि स रि ग रि स रि ग रि रु रि
मंत्र	

• • • • •  
२

तार	
मध्य	ग रि स रि ग रि स रि ग रि स रि ग
मन्द्र	

. . . . .

तार	
मध्य	रि स रि ग रि रि म ग रि स सु ङ
मन्द्र	नि

. . . . .

३

तार	
मध्य	ग प म ग रि स सु ङ ध ङ नि ध प
मन्द्र	न

. . . . .



तार	सु
मध्य	ध नि ऋ नि ध प म ग रि सु ऋ ग म
मन्द्र	

• • • • • का हे  
२

तार		
मध्य	पु सु ऋ गु रि ऋ गु र् रि	सु र सु ऋ ऋ
मन्द्र		नि

को वा • • • धे • ती र  
१ २ ३

तार		
मध्य	सु ग म गु मु पु धु ऋ नि ध प • र	पु र गु
मन्द्र		

भो ये क मा • • • व नी ई •  
२ १ २

तार	
मध्य	सू धु सु पु षु गु ऽ रि सु ऽ ऽ सु ग म गु
मंत्र	

• • • • • भो ये क सा  
३ २

तार		
मध्य	सु पु धु षु नि धु प ऽ ऽ	गु सु पु धु षु नि
मंत्र		

• • • • • ब ना  
३ २

तार	
मध्य	पु धु • १ सु प पु म • गु सु रि गु सु • १ गु
मंत्र	

• • • • • ३ २

तार	~	~ ~
मध्य	मु प धु नि • I	य नि ध्र पु म ध्र पु • म पु
मंन्द्र		

१ २ ३

तार	
मध्य	ऽ मु गू सु रि गू सु • ऽ गु मु पु धु नि
मंन्द्र	

२

तार	सु रि सृ १	
मध्य	ध्र १	य नि ऽ ध्र मु पु ध्र य नि •
मंन्द्र		

१

तार	
मध्य	धु - पु सु पु धु ३ रि सु ३ ग सु रि ग सु ३
मन्द्र	
.....	
	२ ३

तार	
मध्य	सु ग म ग सु पु धु ५ नि धु प ५ ५ ग
मन्द्र	
भो ये क मा . . . . . ष नी जो	
	२

तार	
मध्य	ग म ग सु पु ५ गू . रि सु . ५ सु ग ५ रि
मन्द्र	
ते हा री . . . . . नै . न . ते हा . .	

तार	
मध्य	गु सु प् ५ ग ५ रि सु • ५ सु प् म् पु धु
मन्द्र	
री • • नै • न ते हा • • •	

तार	
मध्य	५ नि धु पु धू पु मु प् म् ग ५ सु प् धू नि
मन्द्र	
• री • • नै • • न • ते हा • • •	

तार	सु रि सु ५
मध्य	नि धु • ५ नि ५ धु पु मु पु धु
मन्द्र	
• • री • • • नै • • • • •	

तार	ॐ ॐ सु सु
मध्य	५नि ५ धु पु मु धु ५ म प ५नि
मन्द्र	

• • • • न ते हा री नै •

तार	
मध्य	धु पु मु गु सु पु धु ५नि धु पु मु गु रि
मन्द्र	

• • • • • • • • • • • • • • • •

तार	
मध्य	गु मु पु धु पु मु गु रि सु ९ सु ग म गु
मन्द्र	

• • • • न • • • • • भो ये क सो

तार	*	
मध्य	सु पु धु ऽनि धु प ०१	कमनीया काहे को बाधे
मन्द्र		

• • • • व नी

तार		
मध्य	ग गु सु गु रि गु सु पु पु सु गु रि गु सु	
मन्द्र		

का • • • • • हे • • • • •

१

तार	सु सु	
मध्य	पु धु धु पु सु गु गु सु पु धु नि	
मन्द्र		

• को • • • • • १ • १ • १ • • • • वा

२

तार	सुरि
मध्य	नि ध्रु पु सु ग रि गु मु पु ध्रु नि
मन्द्र	

• • • • •

३

तार	सु •
मध्य	नि ध्रु ५ नि ध्रु पु ग मृ षु सु ग रि गु ५
मन्द्र	

धे • ती • र का हे को वा • • •

२

तार		
मध्य	रि	सु • सु १ ग मृ षु • गु • सु षु
मन्द्र	नि	

• धे ती र क म नी • • •

१

२



तार	
मध्य	पृ० मृ० पु० धु० पु० सु० गु० रि० गृ० ११ मृ० धृ० ५
मंन्द्र	

या • • • • रे • • • • या •  
३ २

तार	स	
मध्य	धु० पु० धु० ऽनि	५ धु० सु० पु० धृ० पु० गु० सु० रि०
मंन्द्र		

• • • • • रे • • • • •  
१

तार	
मध्य	गृ० ५ मृ० धृ० धृ० धृ० धृ० पु० धु० ऽनि ऽनि धु० पु०
मंन्द्र	

• अ रे क म नी • • • • या • • •  
२ ३

तार	
मध्य	मुपुधुपुमुगुसुगुपुमुमुमु • ५गु
मन्द्र	

• • • रे • • अ रे क म नी या •  
२

तार		सुसुसु
मध्य	सुरिगु सु५सुनि	नि
मन्द्र	नि	

• • • रे • • अ रे क म नी •  
१

तार	सुरि
मध्य	५नि • धुमुपुधुपुगुमु रिगु
मन्द्र	

• • या • • • रे • • • •  
२

तार	सु रि गु सु ग रि सु	
मध्य	गु सु पु धु नि	५नि
मन्द्र		

बा . . . . . धे . . .  
३

तार	सु रि रि रु	
मध्य	५नि धु पु सु ग रि गु ग	
मन्द्र		

. . . . . का  
२

तार		
मध्य	सू पु सु ५गु रि ५गु ५ रि	सु . सु ५ .
मन्द्र		नि

हे को बा . . . . . धे . . . ती र  
१ २

तार	
मध्य	रि ऽग रि स रि म म ऽग रि स स११
मन्द्र	नि
वा . . . . . धे	

तार	स
मध्य	प प ग म रि ग ञ १ ग म प मु ऽगु
मन्द्र	
ती . र . . . . का हे को वा .	
३ २	

तार		स
मध्य	रि ऽगु १ रि	स . सु ट ऽनि धु
मन्द्र	नि	
. . . धे . ती र वा . .		
१ ३ २		

तार	सु रि
मध्य	पु सु ऋ गु रि सु ऋ गु सु पु धु ऋ नि
मन्द्र	


• • • • • • • • • •

तार	सु
मध्य	नि धु ऋ नि प धु म प गु म रि ग गु
मन्द्र	

धे • ती • र • • • • • का  
३ २

तार		
मध्य	मृ पृ सु ऋ गु रि ऋ गु रि	ग सु ग
मन्द्र		नि

हे को बा • • • धे • सं त  
३



तार		
मध्य	म प प प प	ग म प प मु ऋ रि
मन्द्र		

ह द य व न      म न मृ ग दु      • •  
 २                      १                      २

तार		
मध्य	ऋ गु ङ रि	सू • ऋ स ग म प ध
मन्द्र	नि	नि

• • ड त      आ • • • • •  
 ३

तार	
मध्य	प म ऋ रि स      स ग म प ध ऋ नि
मन्द्र	नि

• • • • •

तार	
मध्य	ध प म ऽग रि स सु ग म प ध नि
मन्द्र	नि

२

तार	सु
मध्य	ऽनि ध प म ऽग रि स सु ग
मन्द्र	नि

तार	सु ऋ रि सु सु
मध्य	म प ध नि ऽनि ऽनि
मन्द्र	

३

तार	
मध्य	ध्रु ऽनि ध्रु पु ध्रु पु सु पू सु गु मु ऽगु रि
मन्द्र	

• • • • •

२

तार	
मध्य	ऽगु रि सु रि सु सु सु ग म प
मन्द्र	नि नि

• • • • •

३

तार	
मध्य	ध्रु प म ऽगु रि सु ऽऽ सु ग म प प प प
मन्द्र	

• • • • •

सं त हृ द य व

२





॥ श्रीगुरु दत्त प्रसन्न ॥

# राग प्रवेश.

INDUSTANI

Hindi Series

Library of the

University of Allahabad

भाग १४ वा.

संपादक, मुद्रक, और प्रकाशक.

श्रीमान् पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कार.

गायनाचार्य, मास्टर ऑफ इंडियन म्यूजिक, मिन्सिपॉल,

गोधरे महा विद्यालय—बंबई द्वारा रचित.

सन १९२१.

इस पुस्तकके छापनेका सब अधिकार पुस्तक कर्ताने  
आपने स्वस्थान रखा है.

प्रथमावृत्ति ] प्रती ५०० [ मुख्य १॥ रुपया.

"गोधरे महा विद्यालय" प्रेस, सैन्ट्रल रोड—बंबई.



## राग बागेश्री बहार.

इस रागमें गंधार कोमल दो निषाद एक कोमल दुसरा अति-  
कोमल और धैवत वादी रहेगा रिषभ संवादी नि, ग  
अनुवादी रहेंगे. अतिकोमल निषादके वास्ते निशानी होंगी.

( तीन ताल.)

तार	सु
मध्य	धु नि षु नि पु पु सु पु सु गु . सु
मन्द्र	

क ली य न सं ग क र ता . .  
३ २

तार	सु
मध्य	सु षु नि पु नि सु षु नि पु नि
मन्द्र	

रं ग र लि या भ व र गुं  
१ २ ३ ४

तार	स स रि ग .	रि स स
मध्य		५ नि धु धु .
मन्द्र		

जा २ फू . ली फू ल वा . .  
२ १ २

तार	
मध्य	५ नि षु षु ५ नि धु षु म सु गु . म
मन्द्र	

री च हं . ओ र मो . .  
३ २

तार	
मध्य	प रि स . ५ स रि रि म ५ नि ५ नि षु
मन्द्र	

र बो ले को य ल की कृ . क  
१ २ ३ २

तार		सु० ५
मध्य	सु गु० सु गु० सु०	सु ५ नि पु नि
मन्द्र		

सु . . . नी हु . क उ टी  
१ २

तार		सु रि सु रि रि सु
मध्य	कलीयन संग करता	सु
मन्द्र		

३ २ ले हे र क ह र ले  
१ २

तार	रि० ५ स सु	सु रि रि	सु सु
मध्य		नि	
मन्द्र			

३ रा त स व वि र छ न  
१ २ १

तार	स० ५	सु
मध्य	ग० म० ५ नि० ध०	ध० नि० ५ नि० ध० पु०
मन्द्र		

आ . . . . क ली य न सं ग  
१ . . . . ३

तार	सु रि सु
मध्य	ग० म० ५ नि० ध० नि० नि० ध० नि०
मन्द्र	

आ . . . . क ली  
२ . . . . ३

तार	सु	सु रि सु गु
मध्य	५ नि० ग० म० ५ नि० ध०	नि०
मन्द्र		

य न आ . . . .  
३ २ . . . . ३

तार	रि . सु . सु
मध्य	नि धुनि ५ निपुपुमुपुमु
मन्द्र	

\* क ली य न सं ग क र ता  
३ २

तार			
मध्य	गु . मु	कलीयन संग करतां	रंगर लीया धुनि
मन्द्र			

क ली  
३ २ १ २

तार	सु	
मध्य	५ निपुपुमुपुमु	गु . मु गु मु धु
मन्द्र		

य न सं ग क र ता . . आ . . :  
३ २ १



तार	स	सु . ५	सु
मध्य	नि	धु नि	धु नि ५ नि पु पु
मन्द्र			

. . . . क ली य न सं ग  
३

तार		सु रि सु	सु . ५
मध्य	ग गु मु धु नि	नि ५ नि धु नि	
मन्द्र			

आ . . . . .  
२ . . . . . १ . . . . . ३ . . . . .

तार	सु	सु मु गु
मध्य	धु नि ५ नि पु पु गु मु धु नि	
मन्द्र		

क ली य न सं ग आ . . . . .  
३ . . . . . २ . . . . .

तार	५ मु ङि सु रि सु सु . ५
मध्य	नि धु नि धु नि
मन्द्र	

१ . . . . . २ क ली

तार	सु सु मु गु म पु
मध्य	५ नि षु षु गु मु धु नि
मन्द्र	

य न सं ग आ . . . . . १\*  
३ २

तार	रि . सु रि सु सु . ५
मध्य	नि धु नि कलीयन संग करता
मन्द्र	

२ ३ २

तार	सु
मध्य	धु नि ५ नि पु पु सु पु सु गु . सु
मन्द्र	

क लो थ न सं ग क र ता .  
३ ५

तार	सु रि सु रि रि सु रि . ५ सु सु
मध्य	सु नि नि
मन्द्र	

ले हे र क ह र ले . रा त आ वे  
१ २ ३ ४

तार	सु रि सु रि रि ५ सु ५ .
मध्य	सु ५ नि धु नि
मन्द्र	

ले हे र क ह र . आ . . .  
१ २ ३ ४

तार	सु . ५	मृ णि मृ णि णि णि सु णि
मध्य		सु णि
मन्द्र		

ले हे र क ह र आ  
१ २ ३ ४

तार	सु . ३	सु णि मृ णि मृ णि णि
मध्य		धु णि सु णि
मन्द्र		

ले हे र क ह र  
१ २

तार	सु ५ .	सु णि णि
मध्य		५ णि धु . ५ णि धु णि
मन्द्र		

आ ३ . २ . १ . . .

तार	सु . ५ सु मु गु मु रि लु . ५ रि
मध्य	नि
मन्द्र	

	२ . . . . . ३	५
तार	सु ५ सु . ५ सु	
मध्य	५ नि धु नि धु नि	
मन्द्र		

	२ . . . . . क ती य ३
तार	
मध्य	५ नि षु षु म षु मु गु . सु सु म . ५ पु मु
मन्द्र	

न सं ग क र ता . . आ . .  
 २ १ २

तार	
मध्य	गु म ५ म ५ नि धु म म पु धु म पु ग म
मन्द्र	

३ २ १

तार		
मध्य	रि सु ५ कलीयन संग करता	रंगरलिया धु
मन्द्र		

२ ३ २ १ २ क

तार	सु
मध्य	नि ५ नि पु पु म पु मु गु म
मन्द्र	

ली य न संग क र ता . .  
३ २ . .

तार	
मध्य	सु स . १ पु मु गु मु १ सु ५ नि धु म सु
मन्द्र	

आ . १ . २ . ३ . २ .

तार	स . रि स स
मध्य	५ नि धु   नि धु नि धु ५ नि
मन्द्र	

१ २ ३

तार		
मध्य	पु सु पु धु मु पु	गु मरि सु . ५
मन्द्र		

३ . . . १ . २

तार		सु
मध्य	कलीयन संग करता	संगर लिया धु नि ष नि
मन्द्र		

क ली य न  
३ २ १ २ ३

तार		
मध्य	पु पु सु प सु गु . सु सु सु . उ पु सु गु	
मन्द्र		

सं ग क र ता . . आ . . . .  
२ १ २

तार		सु .
मध्य	सु उ सु ष नि धु सु सु ष नि धु	नि
मन्द्र		

३ . . २ . . १ ३ .



तार	सु . १ सु रि सु ०	रि रि सु रि गु १ रि
मध्य		
मन्द्र		

३      २      १      २

तार	सु . ५ सु मु गु मु षु रि . ० सु . ५
मध्य	
मन्द्र	

३      २

तार	रि      सु ० .	सु . ५ सु
मध्य	नि      ५ नि धु ५ नि	
मन्द्र		

तार	
मध्य	५ नि ङु षु ङु मु षु मु षु ग ङु रि
मन्द्र	

. . . . . २ . . . . . १ . . . . . \*

तार	सु
मध्य	सु . ५ धु नि    ५ नि षु षु ङु षु मु गु . मु
मन्द्र	

.    क ली य    न सं ग क र ता .    .  
२                    ३                    २

तार	सु रि सु रि रि मु रि . ा रि रि सु
मध्य	सु
मन्द्र	

ले    हे र क ह र ले .    आ . . .  
१                    २                    ३

तार	रि सु	सु . ५	मं रि
मध्य	५ नि धु नि		सं
मन्द्र			

ले हे र

तार	मं रि रि मं रि .	सु रि रि सु
मध्य	१ नि	
मन्द्र		

क ह र ले . आ . . . . .  
२ ३ २

तार	सु . ५	मं रि मं रि रि
मध्य	५ नि धु नि	सं
मन्द्र		

ले हे र क ह र  
१ २

तार	मु ठि . सु रि रि सु
मध्य	१ नि ५ नि धु नि
मन्द्र	

ले . आ . . . . .  
३ २

तार	सु सु	
मध्य	धु ५ नि	५ नि पु धु धु मु पु पु गु
मन्द्र		

१

तार		सु रि
मध्य	मु मु रि रि सु .	५ गु मु धु नि
मन्द्र		

२ . . . . . ३ . . . . .

तार	गुरिसु	रिसु	सु. ५
मध्य		नि	५ नि धु धु नि
मन्द्र			

२

तार	सुरिसुरिसुरिसु	५ससु
मध्य	सु	नि नि
मन्द्र		

ले हे र क ह र ले . ग त आ व  
१ २ ३ ४

तार	सुरिसुरिसुरिसु	५ससु
मध्य	सु	नि
मन्द्र		

ले हे र क ह र ले . रा त स  
१ २

तार	सु रि रि सु सु
मध्य	५ नि ध धु . ५ नि धु ५
मन्द्र	
व बि र छ न मा . . री ले ३ २	

तार		
मध्य	पु पु सु ५ नि पु . सु	गु गु मु धु धु धु
मन्द्र		
ना र ग ड वा . भ र ले आ . ई १		

तार	सु सु	सु रि
मध्य	धु मु मु गु मु धु नि	धु नि
मन्द्र		
आ . ज वा ग मे पु का रे की नी वा ले २ ३		

तार	रि मु म् मु	
मध्य	पु पु	५ नि ५ नि पु ५ नि
मन्द्र		
रा म बो ले ह र		वा . र वा
२		१

तार		
मध्य	५ नि पु पु पु ५ नि ५ नि पु ५ नि ५ नि	
मन्द्र		
. र ह र वा . र वा .		
२		३

तार	सु	
मध्य	पु धु नि	५ नि पु पु मु पु मु गु . मु
मन्द्र		
र क ली य		न सं ग क र ता . .
२		

तार	स० ५	सु
मध्य	सु ५ नि धु नि	धु नि ५ नि पु
मन्द्र		

रं ग र ली या क ली य न सं  
१ २ ३

तार		सु
मध्य	पु सु पु सु गु . सु	रं ग र ली या धु नि ५ नि पु पु
मन्द्र		

ग क र ता . क ली य न सं ग  
२ ३

तार		सु . ५ ७ .
मध्य	सु पु सु गु . सु	सु ५ नि धु नि
मन्द्र		

क र ता . रं ग र ली या  
२ १ २ ३



तार		स स सु . ५ सु सु
मध्य	गु मु ५ नि धु .	नि
मन्द्र		

क ली य . न . मं ग  
२ १ २ ३

तार	सु	
मध्य	नि ५ नि धु . ५	पु धु ५ नि धु पु . ५
मन्द्र		

क र ता . रं ग र ली या  
२ १ २ ३

तार		
मध्य	मु पु धु पु सु गु . मं रि सु . ५ सु	
मन्द्र		

भ . व . र . मुं जा रें फ  
३ २

तार	
मध्य	म० प० प० † नि० म० प० सु० गु० . म० म० † नि० ध०
मन्द्र	

ली कु ल वा . . गी . . च हं .  
 १ २ ३

तार	सु० सु० रि०	गु० रि०	सु० . सु०
मध्य		नि०	नि०
मन्द्र			

आ र मा र वा . ल को  
 २ ३ ४ २

तार	सु० रि० सु०	सु० गु० रि० सु०
मध्य	† नि० ध० . † सु०	
मन्द्र		

. . च ल को कृ . क सु नी  
 ३ २

तार	रि	सु	रि	सु	सु
मध्य	सु		नि	ध	नि
मन्द्र					

इं . क उ ठी . क ली य  
१ २ ३

तार												
मध्य	५	नि	पु	पु	सु	पु	सु	गु	म	*	सु	गु
मन्द्र											नि	

न सं ग क र ता . . १२ क ली य  
२ ३

तार										सु
मध्य	सु	पु	पु	सु	पु	सु	गु	म	ध	नि
मन्द्र										

न सं ग क र ता . रं ग र ली  
२ १ २

तार	सु रि गु . रि सु . ५
मध्य	५ नि धु . धु नि
मन्द्र	

या . भ व ग गुं जा . रे  
३ २

तार	रि गु . रि सु सु
मध्य	५ नि धु - ५ नि धु ५ नि
मन्द्र	

फु . ली फु ल वा . गी च हं  
१ २ ३

तार		
मध्य	धु पु म पु	रि सु . ५ सु रि रि म ५ नि
मन्द्र		

ओ र मो ग वो ले को य ल कौ कु .  
२ १ २ ३

तार		सु. ५
मध्य	५ नि ष मु ग . सु म ५ नि ध नि	
मन्द्र		

क सु . नी ह . क उ ठी  
२ ६ ७

तार		रि सु रि सु
मध्य	कलीयन संग करता	सु नि
मन्द्र		

३ २ रं ग र ली या .  
१ २

तार		रि ग ग रि सु सु
मध्य	कलीयन संग करता	नि .
मन्द्र		

३ २ रं . . ग . र .  
१

तार	धु	सु
मध्य	५ नि धु कलीयन संग करता	सु
मन्द्र		

ली या . क ली  
२ ३ २ १

तार	गु.५ सु गु.५ म रि सु सु
मध्य	नि ५ नि धु
मन्द्र	

या . न सं ग क र ता .  
२ ३

तार	सु रि सु
मध्य	धु नि नि ५ नि ५ नि षु सु धु षु
मन्द्र	

रं ग र ली या . भ व र गुं जा .  
२ १ २

तार		
मध्य	स० प० ग० म० रि० रि० स० स०	स० ग० म० प०
मन्द्र		नि०

रे फू ली फू ल वा री च हुं ओ र मों  
३ २ १ २

तार		स० रि०	स०
मध्य	म० धु० पु० ग० ग० म० धु० नि०		नि०
मन्द्र			

रे बो . ले को य ल की कृ क सु नी  
३ २ ३ २

तार	रि० स० रि०	स०	
मध्य	स०	नि०	कलीयन संग करता
मन्द्र			

हृ . क उ टी .  
१ २ ३ २

तार	सु
मध्य	गु मु धु नि ५ नि धु पु मु गु मु . ५
मन्द्र	

आ . . . . . १ . . . . . २

तार		सु सु
मध्य	कलीयन संग करता	गु मु धु ५ नि
मन्द्र		

३ २ आ . . . . . १

तार	रि सु
मध्य	नि ५ नि धु . ५ कलीयन संग
मन्द्र	

. . . २ . . . ३



तार		सु सु	रि रि सु रि
मध्य	१ गु मु धु नि		नि
मन्द्र			

आ . . . . .  
२ . . . . . १

तार	गु रि सु	
मध्य	५ नि धु	कलयित संग करता रंगगळीया
मन्द्र		

. . . . .  
२ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . . १ . . . . . २

तार	सु	सु सु
मध्य	धु नि	५ नि गु मु धु नि
मन्द्र		

क ली य . . . . . न आ . . . . .  
३ . . . . . ३

तार	रि रि सु मु मु	गु रि सु	सु रि
मध्य	नि		नि
मन्द्र			

१

तार	गु रि सु	
मध्य	५ नि धु . ५ कलीयन संग करता	रंगरलीया
मन्द्र		

२

३

२

१

२

तार	सु	
मध्य	धु नि	५ नि पु पु म पु मु गु . म
मन्द्र		

क ली य न सं ग क र ता .  
३ २

तार	सु० ५	सु सु
मध्य	सु ५ नि धु नि	ग गु मु धु नि
मन्द्र		

रं ग र ली या आ . . . . .  
१ २ ३

तार	रि रि सु मु मु गु पु पु मु	गु रि सु
मध्य	नि	नि
मन्द्र		

. . . . . २ . . . . . १ . . . . .

तार	सु रि गु रि सु	सु
मध्य	५ नि धु . ५ धु ५ नि	
मन्द्र		

. . . . . २ . . . . . क ली य ३

तार	
मध्य	५ णि षु षु षु षु षु गु . षु षु ५ नि धु ५ नि
मन्द्र	

न सं ग क र ता . . . रं ग र ली  
 २ १

तार	सु सु सु रि गु . रि सु सु
मध्य	मु ५ नि षु नि
मन्द्र	

या भ व र गुं जा रे फ़ . ली फ़ ल  
 २ ३

तार	
मध्य	५ नि धु . ५ नि षु धु ५ नि धु मु गु मु
मन्द्र	

वा . री च ह . ओ र मो .  
 २

तार	
मध्य	पु रि सु स्र रि रि म् ५ नि ५ नि पु गु मु मु
मन्द्र	

र बो ले को य ल की कृ . क सु . नी  
१ २

तार	सु . ५ सु
मध्य	मु ५ नि धु नि धु नि ५ नि पु
मन्द्र	

हृ . क उ ठी क ली य न सं  
३ २

तार	
मध्य	पु मु पु म् गु . मु रंगरलीया कलीयन संग
मन्द्र	

ग क र ता . १ २ ३



## प्रस्ताविका.

“राग प्रवेश” इस पुस्तकके बनाने का मुख्य उद्देश यह है कि जिन को थोड़ा बहोत स्वर का और ताल का ज्ञान हुआ हो उन के लिये किसी राग के गीत पर किसम २ के तान आलाप तथा बोलतान लेने में सुगमता होवे इस लिये इस पुस्तक को प्रकाशित करना शुरु किया है. यह पुस्तक अनेक भागों में पूर्ण होगा. उन भागों की संख्या अभी नियत नहीं कर सक्ते हैं. इस के सब भाग यदि कंठ हो जावें तो लगभग प्रचार के राग रागिणियों का आलाप तान सहीत गाना सहज होगा. इस के नामसे ही प्रतीत होता है कि यह पुस्तक हर एक राग के विस्तार के क्रम का प्रकाशक है.

इस त्रयोदश भाग में केवल बरवा राग में एक गीत विलंबित तीनताल का प्रकाशित किया है और इस में “प्लावित, गद्गदित, मुद्गीत, अहात, आंदोलीत, कंपीत” इत्यादि गमक लिखी हैं. इस लिये निवेदन है कि जिस किसी को गाना बजाना शीघ्रता से साध्य करना हो तो उस के लिये यह पुस्तक एक बहोत उपयोगी वस्तु होगी. परंतु समझने के लिये पहिले हमारे यहां की अकंठ रीति को (नोटेशन सिस्टम को) अच्छी रीति से समझना चाहिये:

इति शुभम् ।

भवदीय

विष्णु दिगंबर :

## गमकांची चिन्हे.

- १ प्राचीत १ २
- २ गदगदीत ——— —
- ३ सुद्रीत =====
- ४ अहात ७ सुर्छना
- ५ अंदोलीत ~
- ६ कंपीत \*



# राग बरवा.



इस रागमें दो गंधार और दो निषाद बाकी सब शुद्ध स्वर  
अतिक्रमल ग और नि के वास्ते निशाणी होगी.

विलंबित नीगताल.

तार	
मध्य	स ग ग गु मु प १ १ म प ध प म ग रि
मन्द्र	

क म नी या \* \* \* \* \* रे \* \* \*  
२ ३

तार	
मध्य	गु * ग म प मु * गु रि * गु १ रि
मन्द्र	नि ११

\* का हे को बां \* \* \* \* \* धे \* \* \*  
३

तार		
मध्य	सु१ सु५	१ सु म ५ ग रि सु
मन्त्र		नि

ती र ई . . . . .  
१ २

तार	
मध्य	सु११ सु ग म गु मु पु धु ५ नि ध्रु प १
मन्त्र	

भो य क मा . . . . . ब नी  
३ २

तार	
मध्य	१ ग ग म ग म प ५ ग रि सु ११ पु नि
मन्त्र	

जो ते हारी . . . . . नै न प ल न  
१ २ ३

तार	सु. सु.	
मध्य	नि णि नि णि	५नि धु पु. पुमु गु
मन्द्र		

क दो उ . . श र की . . .  
२

तार		
मध्य	रि गू . ५ गू गू गु मु पु धु मु पू . गू मु	
मन्द्र		

. . अ नी या . . . . . का हे  
२ ३

तार		
मध्य	धु मु पू ट ५गु ५गु रि ५गु ५ रि	
मन्द्र		नि५९

'को' बा . . . धे . .  
३

तार	
मध्य	सू५ सु५५ सुगुगुसुगुसु रिगुगु५
मन्द्र	
ती र क म नी या . . . रे	
१ ३	

तार		
मध्य	सु गु गु प म गु सु रि गु सु	सू गु
मन्द्र		
क म नी . या . . . रे		
२ १		

तार	
मध्य	गु ध म गु सु रु गु सु . ५ ५ गु ५ गु
मन्द्र	
नी . या . . . रे	
३ क म	

तार	
मध्य	५गु ५गु रि सु रि गु सु • ५ गु • ५ गु म
मन्द्र	

नी या . . . . रे आ का है  
३ २

तार		
मध्य	पु सु ५गु रि ५गु रि	सु ५ सु ५
मन्द्र		नु

को बा . . . धे . ती र  
१

तार	
मध्य	सु ५गु ५गु ५गु • रि सु रि गु
मन्द्र	नि

अ रे क म नी . . . .  
३

तार	
मध्य	सु० ५ सुसुसु० सु
मन्द्र	धु नि नि धु नि
	या अ रे क म नी . . . . .
	३

तार		
मध्य	सु० ५ रि रि रि	I
मन्द्र	पु पु	५नि धु पु I
	या अ रे क म नी	या
	२	१

तार	
मध्य	सु रि ५गु० रि सु रि मगु रि सु ५
मन्द्र	पु धु
	. . . . . रे .
	३

तार	
मध्य	सृ गृ गृ गृ मृ • गु सुरि गु सु पृ मृ • गु
मन्द्र	

अ रे क म नी • • • • • या •  
३ २

तार		
मध्य	सुरि गु सृ • ५ गृ पृ	पृ पृ गृ पु धु
मन्द्र		

• • • रे अ रे क म नी • •  
१

तार	
मध्य	५ नि ध्रु पु गृ पृ सु पु ध्रु पु मृ गृ मृ ध्रु ध्रु
मन्द्र	

• • • या • • • • • रे • आ रे कृ  
२

तार	सु ५
मध्य	धु पु धु नि      ५नि ५नि • धु सु पु
मन्द्र	

म नी • • • • या • • •  
३

तार	
मध्य	धु • पु सु गु रि गु १ गु म पु सु ५ गु
मन्द्र	

• रे • • • • का हे कां वां •  
२

तार	
मध्य	रि ५ गु १ रि      सू • सु १ पू पु धू पू
मन्द्र	नि

• • • • ती र क म नी या  
१



तार	
मध्य	स ग रि ग १ ग स प स ५ ग रि ५ ग
मन्द्र	

• • • • का हे को वा • • • •  
२

तार	
मध्य	रि रि सु • सु १ ग प प ग स प
मन्द्र	नि

• धे • ती र क म नी था • •  
३

तार	
मध्य	ध ५ नि ध प ग स प स ५ ग रि ५ ग रि
मन्द्र	

• • • • का हे को वा • • • •  
२

तार		
मध्य	रि	सु १ सु ५ स ग ग गू मू • गु
मन्द्र	नि०	

धे • ती र क म नी या • •  
 १ २

तार		रि रिस <small>ॐ ॐ ॐ</small>
मध्य	सु पु • सु पु धू • पु धु ५ नि • धू	
मन्द्र		

• • • • •  
 ३

तार		
मध्य	५ नि धू प म ग रि गू १ गू मू पु मु ५ गु	
मन्द्र		

रे • • • • • का हे को वां •  
 २

तार		
मध्य	रि ऋगु श्रि	सृ ङ सु ऽ सु गृ ग मु
मन्द्र	नि	

. . धे . ती र क म नी या  
१ २

तार		सु सु
मध्य	सु गु रि गु मु पु धु ऽ नि धु पु धु	
मन्द्र		

. . . . . ३

तार		
मध्य	ऽ नि धु पु सु गु रि सु . ऽ ङ गू मू षु सु	
मन्द्र		

. . . . . रे का हे को वीं  
२ .

तार		
मध्य	५गु रि ५गु ५रि	सु ५सु ५गु ५गु ५गु
मन्द्र		नि

• • • धे • ती र क म  
१ २

तार	✕	
मध्य	पु पु पु सु गु रि गु सु पु धु पु सु गु • ५९	
मन्द्र		

नी या • • • • • रे • • •  
३

तार		✕
मध्य	सु धु धु धु पु सु गु	गु सु पु धु नि
मन्द्र		

क म नी • • • • •  
२ १

तार	सु-१
मध्य	धु पु म गु ५५ ग म पु धु नि ५नि
मन्द्र	
रे . . . क म नी . . . २ ३	

तार	सु१
मध्य	धु ५नि धु म पु धु प म ग रि
मन्द्र	
. . या . . . रे . . . २	

तार	
मध्य	ग १ ग गु गु म पु धु ५नि १ पु धु
मन्द्र	
. क म नी . . . या . . . १	

तार	रि सु०१
मध्य	नि ऋ०धु सु गु ० गू धु पु पु
मन्द्र	

• • • • • रे क म • नी  
२ ३

तार	
मध्य	धु ऋ०नि पु धु ऋ सु पु ऋ सु पु धु पु सु गु
मन्द्र	

• • • या • • • • • रे •  
२

तार		सु
मध्य	रि गु ० गू धु पु ऋ०नि धु	पू धु पु सु
मन्द्र		

• • • क म • नी • या • • • रे •  
१ .

तार	सु रि
मध्य	गू०५१ गू गू गु सु पु धु नि नि
मन्द्र	

क म नी . . . . .  
२

तार	सु
मध्य	धु यनि १ ध प म ग ग म प ध यनि
मन्द्र	

था . . . . .  
३

तार	स रि स
मध्य	ध प ध यनि यनि ध प म
मन्द्र	

रे . . . . .

तार	
मध्य	गु रि गु ॥ गु मृ पृ मु ५ गु रि ५ गु ९ रि
मंत्र	

• • • का हे को वा • • • वे  
२

तार	
मध्य	रि गु रि स रि ग रि स रि ग रि स
मंत्र	नि

• आ • • • • • • • • • •  
१

तार	
मध्य	रि ग रि स रि ग रि स रि ग रि रु रि
मंत्र	

• • • • • • • • • •  
२



तार	
मध्य	ग रि स रि ग रि स रि ग रि स रि ग
मन्द्र	

• • • • •

तार	
मध्य	रि स रि ग रि रि म ग रि स सु ङ
मन्द्र	नि

• • • • •

३

तार	
मध्य	ग प म ग रि स सु ङ ध ङ नि ध प
मन्द्र	न

• • • • •

तार	सु
मध्य	ध नि ष नि ध प म ग रि स ङ ग म
मन्द्र	

• • • • • का हे  
२

तार		
मध्य	पु सु ष गु रि ष गु र् रि	सु र सु ष ष
मन्द्र		नि

को वा • • • धे • ती र  
१ २ ३

तार		
मध्य	सु ग म गु मु पु धु ष नि ध प • १	पु ष गु
मन्द्र		

भो ये क मा • • • व नी ई •  
२ १ २

तार	
मध्य	सू धु सु पु ष गु ऽ रि सु ऽ ऽ सु ग म गु
मन्द्र	

• • • • • भो ये क सा  
३ २

तार		
मध्य	सु पु धु ष नि धु प ऽ ऽ	गु सु पु धु ष नि
मन्द्र		

• • • • • ब ना  
३ २

तार	
मध्य	पु धु • १ मू प पु मू • गु सु रि गु सु • १ गु
मन्द्र	

• • • • • ३ २

तार	~	~ ~
मध्य	मु प धु नि० I	Yनि धु पु मु धु पु० मु पु
मंन्द्र		

.....

१ २ ३

तार	
मध्य	Y मु गु सु रि गु सु० Y गु मु पु धु नि
मंन्द्र	

.....

२

तार	सु रि सु १	
मध्य	धु १	Yनि Y धु मु पु धु Yनि०
मंन्द्र		

.....

१

तार	
मध्य	धु • पु सु पु धु ५ रि सु ५ गु सु रि गु स ५
मन्द्र	
• • • • •	
२	३

तार	
मध्य	सु गु म गु सु पु धु ५ नि धु प ५ ५ ग
मन्द्र	
भो ये क सा • • • • • ब नी जो	
२	

तार	
मध्य	ग म गु सु पु ५ गु • रि सु ५ सु गु ५ रि
मन्द्र	
ते हा री • • • • • न ते हा	

तार	
मध्य	गु सु प् ५ ग ५ रि सु • ५ सु प् म् पु धु
मन्द्र	
री • • नै • न ते हा • • •	

तार	
मध्य	५ नि धु पु धू पु मु प् म् ग ५ सु प् धू नि
मन्द्र	
• री • • नै • • न • ते हा • • •	

तार	सु रि सु १
मध्य	नि धु • ५ नि १ धु पु मु पु धु
मन्द्र	
• • री • • • नै • • • • •	

तार	ॐ ॐ सु सु
मध्य	५नि ५ धु पु मु धु ५ म प ५नि
मन्द्र	

• • • • न ते हा री नै •

तार	
मध्य	धु पु मु गु सु पु धु ५नि धु पु मु गु रि
मन्द्र	

• • • • • • • • • • • • • • • •

तार	
मध्य	गु मु पु धु पु मु गु रि सु १ सु ग म गु
मन्द्र	

• • • • न • • • • • भो ये क सो

तार	*	
मध्य	सु पु धु ऽनि धु प ०१	कमनीया काहे को बाधे
मन्द्र		

• • • • व नी

तार		
मध्य	ग गु सु गु रि गु सु पु पु सु गु रि गु सु	
मन्द्र		

का • • • • • हे • • • • •

१

तार	सु सु	
मध्य	पु धु धु पु सु गु गु सु पु धु नि	
मन्द्र		

• को • • • • • १ • १ • १ • • • • वा

२



तार	सुरि
मध्य	नि ध्रु पु सु ग रि गु मु पु ध्रु नि
मन्द्र	

• • • • •

३

तार	सु •
मध्य	नि ध्रु ५ नि ध्रु पु ग मृ षु सु ग रि गु ५
मन्द्र	

धे • ती • र का हे को वा • • •

२

तार		
मध्य	रि	सु • सु १ ग मृ षु • गु • सु षु
मन्द्र	नि	

• धे ती र क म नी • • •

१

२

तार	
मध्य	पृ० मृ० पु० धु० पु० सु० गु० रि० गृ० ११ मृ० धृ० ५
मंन्द्र	

या • • • • रे • • • • या •  
३ २

तार	स	
मध्य	धु० पु० धु० ऽनि	५ धु० सु० पु० धृ० पु० गु० सु० रि०
मंन्द्र		

• • • • • रे • • • •  
१

तार	
मध्य	गृ० ५ मृ० धृ० धृ० धृ० धृ० पु० धु० ऽनि ऽनि धु० पु०
मंन्द्र	

• अ रे क म नी • • • • या • • •  
२ ३

तार	
मध्य	मुपुधुपुमुगुसुगुपुमुमुमु • ५गु
मन्द्र	

• • • रे • • अ रे क म नी या •  
२

तार		सुसुसु
मध्य	सुरिगु सु५सुनि	नि
मन्द्र	नि	

• • • रे • • अ रे क म नी •  
१

तार	सुरि
मध्य	५नि • धुमुपुधुपुगुमु रिगु
मन्द्र	

• • या • • • रे • • • •  
२

तार	सु रि गु सु ग रि सु	
मध्य	गु सु पु धु नि	५नि
मन्द्र		

बा . . . . . धे . . .  
३

तार	सु रि रि रु	
मध्य	५नि धु पु सु ग रि गु ग	
मन्द्र		

. . . . . का  
२

तार		
मध्य	सू पु सु ५गु रि ५गु ५ रि	सु . सु ५ .
मन्द्र		नि

हे को बा . . . . . धे . . . ती र  
१ २

तार	
मध्य	रि ऽग रि स रि म म ऽग रि स स११
मन्द्र	नि
वा . . . . . धे	

तार	स
मध्य	प प ग म रि ग ञ १ ग म प मु ऽगु
मन्द्र	
ती . र . . . . का हे को वा .	
३ २	

तार		स
मध्य	रि ऽगु १ रि	स . सु ट ऽनि धु
मन्द्र	नि	
. . . धे : ती र वा . .		
१ २		

तार	सु रि
मध्य	पु सु ऋ गु रि सु ऋ गु सु पु धु ऋ नि
मन्द्र	


• • • • •

तार	सु
मध्य	नि धु ऋ नि प धु म प ग म रि ग गु
मन्द्र	

धे • ती • र • • • • • का  
३ २

तार		
मध्य	मृ पृ सु ऋ गु रि ऋ गु रि	ग सु ग
मन्द्र		नि

हे को बा • • • धे • सं त  
३



तार		
मध्य	म प प प प	ग म प प मु ऋ रि
मन्द्र		

ह द य व न      म न मृ ग दु      • •  
 २                      १                      २

तार		
मध्य	ऋ गृ ङ रि	सू • ऋ स ग म प ध
मन्द्र	नि	नि

• • ड त      आ • • • • •  
 ३

तार	
मध्य	प म ऋ ग रि स      स ग म प ध ऋ नि
मन्द्र	नि

• • • • •

तार	
मध्य	ध प म ऽग रि स सु ग म प ध नि
मन्द्र	नि

२

तार	सु
मध्य	ऽनि ध प म ऽग रि स सु ग
मन्द्र	नि

तार	सु ऋ रि सु सु
मध्य	म प ध नि ऽनि ऽनि
मन्द्र	

१



तार	
मध्य	ध्रु ५नि ध्रु पु ध्रु पु सु पू सु गु म् ५गु रि
मन्द्र	

२

तार	
मध्य	५गु रि सु रि सु सु सु ग् म् पु
मन्द्र	नि नि

३

तार	
मध्य	ध्रु पु म् ५गु रि सु ५० सु गु म् पु पु पु पु
मन्द्र	

सं त हृ द य व

२



॥ श्रीगुरु दत्त प्रसन्न ॥

# राग प्रवेश.

INDUSTANI

Hindi Series

Library

of

भाग १४ वा.

संपादक, मुद्रक, और प्रकाशक.

श्रीमान् पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कार.

गायनाचार्य, मास्टर ऑफ इंडियन म्यूजिक, मिन्सिपॉल,

गोधरे महा विद्यालय—बंबई द्वारा रचित.

सन १९२१.

इस पुस्तकके छापनेका सब अधिकार पुस्तक कर्ताने  
आपने स्वस्थान रखा है.

प्रथमावृत्ति ] प्रती ५०० [ मुख्य १॥ रुपया.

"गोधरे महा विद्यालय" गैस, सैन्ट्रल रोड—बंबई.



## राग बागेश्री बहार.

इस रागमें गंधार कोमल दो निषाद एक कोमल दुसरा अति-  
कोमल और धैवत वादी रहेगा रिषभ संवादी नि, ग  
अनुवादी रहेंगे. अतिकोमल निषादके वास्ते निशानी होगी.

( तीन ताल.)

तार	सु
मध्य	धु नि षु नि पु पु सु पु सु गु . सु
मन्द्र	

क ली य न सं ग क र ता . .  
३ २

तार	सु
मध्य	सु षु नि पु नि सु षु नि पु नि
मन्द्र	

रं ग र लि या भ व र गुं  
१ २ ३ ४

तार	स स रि ग .	रि स स
मध्य		५ नि धु धु .
मन्द्र		

जा २ फू . ली फू ल वा . .  
२ १ २

तार	
मध्य	५ नि षु षु ५ नि धु षु म सु गु . म
मन्द्र	

री च हं . ओ र मो . .  
३ २

तार	
मध्य	प रि स . ५ स रि रि म ५ नि ५ नि षु
मन्द्र	

र बो ले को य ल की कृ . क  
१ २ ३ २

तार		सु० ५
मध्य	सु गु० सु गु० सु०	सु ५ नि पु नि
मन्द्र		

सु . . . नी हु . क उ टी  
१ २

तार		सु रि सु रि रि सु
मध्य	कलीयन संग करता	सु
मन्द्र		

३ २ ले हे स क ह र ले  
१ २

तार	रि० ५ स सु	सु रि रि	सु सु
मध्य		नि	
मन्द्र			

३ रा त स व वि र छ न  
१ २ १

तार	स० ५	सु
मध्य	ग० म० ५ नि० ध०	ध० नि० ५ नि० ध० पु०
मन्द्र		

आ . . . . क ली य न सं ग  
१ . . . . ३

तार	सु रि सु
मध्य	ग० म० ५ नि० ध० नि० नि० ध० नि०
मन्द्र	

आ . . . . क ली  
२ . . . . ३

तार	सु	सु रि सु गु
मध्य	५ नि० ग० म० ५ नि० ध०	नि०
मन्द्र		

य न आ . . . .  
३ २ . . . . ३ २



तार	रि . सु . सु
मध्य	नि धुनि ५ निपुपुमुपुमु
मन्द्र	

. . \* क ली य न सं ग क र ता  
३ ३ २

तार			
मध्य	गु . मु	कलीयन संग करतां	रंगर लीया धुनि
मन्द्र			

३ २ १ २ क ली

तार	सु	
मध्य	५ निपुपुमुपुमु	गु . मु गु मु धु
मन्द्र		

य न सं ग क र ता . . आ . . :  
३ २ १

तार	स	सु . ५	सु
मध्य	नि	धु नि	धु नि ५ नि षु षु
मन्द्र			

. . . . . क ली य न सं ग  
३

तार		सु रि सु	सु . ५
मध्य	गु मु धु नि	नि ५ नि धु नि	
मन्द्र			

आ . . . . .  
२ . . . . . १ . . . . . ३ . . . . .

तार	सु	सु सु गु
मध्य	धु नि ५ नि षु षु गु मु धु नि	
मन्द्र		

क ली य न सं ग आ . . . . .  
३ . . . . . २ . . . . .

तार	५ मु ङि सु रि सु सु . ५
मध्य	नि धु नि धु नि
मन्द्र	

१ . . . . . २ क ली

तार	सु सु मु गु म पु
मध्य	५ नि षु षु गु मु धु नि
मन्द्र	

य न सं ग आ . . . . . १\*  
३ २

तार	रि . सु रि सु सु . ५
मध्य	नि धु नि कलीयन संग करता
मन्द्र	

२ ३ २

तार	सु
मध्य	धु नि ५ नि पु पु सु पु सु गु . सु
मन्द्र	

क लो थ न सं ग क र ता .  
३ ५

तार	सु रि सु रि रि सु रि . ५ सु सु
मध्य	सु नि नि
मन्द्र	

ले हे र क ह र ले . रा त आ वे  
१ २ ३ ४

तार	सु रि सु रि रि ५ सु ५ .
मध्य	सु ५ नि धु नि
मन्द्र	

ले हे र क ह र . आ . . .  
१ २ ३ ४

तार	सु . ५	मृ णि मृ णि णि णि सु णि
मध्य		सु णि
मन्द्र		

ले हे र क ह र आ  
१ २ ३ ४

तार	सु . ३	सु णि मृ णि मृ णि णि
मध्य		धु णि सु णि
मन्द्र		

ले हे र क ह र  
१ २

तार	सु ५ .	सु णि णि
मध्य		५ णि धु . ५ णि धु णि
मन्द्र		

आ ३ . २ . १ . . .

तार	सु . ५ सु मु गु मु रि लु . ५ रि
मध्य	नि
मन्द्र	

	२	३	५
तार	सु ५	सु . ५	सु
मध्य	५ नि धु नि		धु नि
मन्द्र			

	२	क ली य ३
तार		
मध्य	५ नि षु षु म षु मु गु . सु	सु म . ५ पु मु
मन्द्र		

न सं ग क र ता . . आ . .  
 २ १ २

तार	
मध्य	गु म ५ म ५ नि धु म म पु धु म पु ग म
मन्द्र	

३

२

१

तार		
मध्य	रि सु ५ कलीयन संग करता	रंगरलिया धु
मन्द्र		

२

३

२

१

२

क

तार	सु
मध्य	नि ५ नि पु पु म पु सु गु म
मन्द्र	

ली

३

न

सं

ग

क

र

ता

.

.

तार	
मध्य	सु स . १ पु मु गु मु १ सु ५ नि धु म सु
मन्द्र	

आ . . . . .  
१ . . . . . २ . . . . . ३ . . . . . २

तार	स . रि	स	स
मध्य	५ नि धु	नि	धु नि धु ५ नि
मन्द्र			

. . . . .  
१ २ . . . . . ३ . . . . .

तार		
मध्य	पु सु पु धु मु पु	गु मरि सु . ५
मन्द्र		

. . . . .  
३ . . . . . १ . . . . . २



तार		सु
मध्य	कलीयन संग करता	संगर लिया धु नि ष नि
मन्द्र		

क ली य न  
३ २ १ २ ३

तार		
मध्य	पु पु सु प सु गु . सु सु सु . उ पु सु गु	
मन्द्र		

सं ग क र ता . आ .  
२ १ २ . . .

तार		सु .
मध्य	सु उ सु ष नि धु सु सु ष नि धु	नि
मन्द्र		

३ . . २ . . १ ३ .

तार	सु . १ सु रि सु ०	रि रि सु रि गु १ रि
मध्य		
मन्द्र		

३      २      १      २

तार	सु . ५ सु मु गु मु षु रि . ० सु . ५
मध्य	
मन्द्र	

३      २

तार	रि      सु ० .	सु . ५ सु
मध्य	नि      ५ नि धु ५ नि	
मन्द्र		

तार	
मध्य	५ नि ङु णु ङु मु णु मु णु ग ङु रि
मन्द्र	

. . . . . २ . . . . . १ . . . . . \*

तार	सु
मध्य	सु . ५ धु नि    ५ नि णु णु ङु णु मु गु . मु
मन्द्र	

.    क ली य    न सं ग क र ता .    .  
२                    ३                    २

तार	सु रि सु रि रि मु रि . ा रि रि सु
मध्य	सु
मन्द्र	

ले    हे र क ह र ले .    आ . . .  
१                    २                    ३

तार	रि सु	सु . ५	म० रि
मध्य	५ नि धु नि		स०
मन्द्र			

ले हे र

तार	म० रि रि म० रि .	सु रि रि सु
मध्य	१ नि	
मन्द्र		

क ह र ले . आ . . . . .  
२ ३ २

तार	सु . ५	म० रि म० रि रि
मध्य	५ नि धु नि	स०
मन्द्र		

ले हे र क ह र  
१ २

तार	मु ठि . सु रि रि सु
मध्य	१ नि ५ नि धु नि
मन्द्र	

ले . आ . . . . .  
३ २

तार	सु सु	
मध्य	धु ५ नि	५ नि पु धु धु मु पु पु गु
मन्द्र		

१

तार		सु रि
मध्य	मु मु रि रि सु .	५ गु मु धु नि
मन्द्र		

२ . . . . . ३ . . . . .

तार	गुरिसु	रिसु	सु. ५
मध्य		नि	५ नि धु धु नि
मन्द्र			

२

तार	सुरिसुरिसुरिसु	५ससु
मध्य	सु	नि नि
मन्द्र		

ले हे र क ह र ले . ग त आ व  
१ २ ३ ४

तार	सुरिसुरिसुरिसु	५ससु
मध्य	सु	नि
मन्द्र		

ले हे र क ह र ले . रा त स  
१ २

तार सु रि रि सु सु

मध्य

५ नि ध धु . ५ नि धु ५

मन्द्र

व बि र छ न मा . . री ले  
३ २

तार

मध्य

पु पु सु ५ नि पु . सु गु गु मु धु धु धु

मन्द्र

ना र ग ड वा . भर ले आ . ई  
१

तार

सु सु

सु रि

मध्य

धु मु मु गु मु धु नि धु नि

मन्द्र

आ . ज वा ग मे पु का रे की नी वा ले  
२ ३

तार	रि मु म् मु	
मध्य	पु पु	५ नि ५ नि पु ५ नि
मन्द्र		
रा म बो ले ह र		वा . र वा
२		१

तार		
मध्य	५ नि पु पु पु ५ नि ५ नि पु ५ नि ५ नि	
मन्द्र		
. र ह र वा . र वा .		
२		३

तार	सु	
मध्य	पु धु नि	५ नि पु पु मु पु मु गु . मु
मन्द्र		
र क ली य		न सं ग क र ता . .
२		



तार	स० ५	सु
मध्य	सु ५ नि धु नि	धु नि ५ नि पु
मन्द्र		

रं ग र ली या क ली य न सं  
१ २ ३

तार		सु
मध्य	पु सु पु सु गु . सु	रं ग र ली या धु नि ५ नि पु पु
मन्द्र		

ग क र ता . क ली य न सं ग  
२ ३

तार		सु . ५ ५ .
मध्य	सु पु सु गु . सु	सु ५ नि धु नि
मन्द्र		

क र ता . रं ग र ली या  
२ १ २ ३

तार		स स सु . ५ सु सु
मध्य	गु मु ५ नि धु .	नि
मन्द्र		

क ली य . न . मं ग  
२ १ २ ३

तार	सु	
मध्य	नि ५ नि धु . ५	पु धु ५ नि धु पु . ५
मन्द्र		

क र ता . रं ग र ली या  
२ १ २ ३

तार		
मध्य	मु पु धु पु सु गु . म रि सु . ५ सु	
मन्द्र		

भ . व . र . मुं जा रै फ  
३ २

तार	
मध्य	म० प० प० † नि० म० प० सु० गु० . म० म० † नि० ध०
मन्द्र	

ली कु ल वा . . गी . . च हं .  
 १ २ ३

तार	सु० सु० रि०	गु० रि०	सु० . सु०
मध्य		नि०	नि०
मन्द्र			

आ र मा र वा . ल को  
 २ ३ ४ २

तार	सु० रि० सु०	सु० गु० रि० सु०
मध्य		† नि० ध० . † सु०
मन्द्र		

. . च ल को कृ . क सु नी  
 ३ ३ २

तार	रि	सु	रि	सु	सु
मध्य	सु		नि	ध	नि
मन्द्र					

इं . क उ ठी . क ली य  
१ २ ३

तार												
मध्य	५	नि	पु	पु	सु	पु	सु	गु	म	*	सु	गु
मन्द्र											नि	

न सं ग क र ता . . १२ क ली य  
२ ३

तार												सु
मध्य	सु	पु	पु	सु	पु	सु	गु	म	ध	नि		
मन्द्र												

न सं ग क र ता . रं ग र ली  
२ १ २

तार	सु रि गु . रि सु . ५
मध्य	५ नि धु . धु नि
मन्द्र	

या . भ व ग गुं जा . रे  
३ २

तार	रि गु . रि सु सु
मध्य	५ नि धु - ५ नि धु ५ नि
मन्द्र	

फु . ली फु ल वा . गी च हं  
१ २ ३

तार		
मध्य	धु पु म पु	रि सु . ५ सु रि रि म ५ नि
मन्द्र		

ओ र मो ग वो ले को य ल कौ कु .  
२ १ २ ३

तार		सु. ५
मध्य	५ नि ष मु ग . सु म ५ नि ध नि	
मन्द्र		

क सु . नी ह . क उ ठी  
२ ६ ७

तार		रि सु रि सु
मध्य	कलीयन संग करता	सु नि
मन्द्र		

३ २ १ ग र ली या .  
१ २

तार		रि ग ग रि सु सु
मध्य	कलीयन संग करता	नि .
मन्द्र		

३ २ १ . . ग . र .

तार	धु	सु
मध्य	५ नि धु कलीयन संग करता	सु
मन्द्र		

ली या . क ली  
२ ३ २ १

तार	गु.५ सु गु.५ म रि सु सु
मध्य	नि ५ नि धु
मन्द्र	

या . न सं ग क र ता .  
२ ३

तार	सु रि सु
मध्य	धु नि नि ५ नि ५ नि षु सु धु षु
मन्द्र	

रं ग र ली या . भ व र गुं जा .  
२ १ २

तार		
मध्य	स० प० ग० म० रि० रि० स० स०	स० ग० म० प०
मन्द्र		नि०

रे फू ली फू ल वा री च हुं ओ र मों  
 ३ २ १ २

तार		स० रि०	स०
मध्य	म० धु० पु० ग० ग० म० धु० नि०		नि०
मन्द्र			

रे बो . ले को य ल की कृ क सु नी  
 ३ ३ ३

तार	रि० स० रि०	स०	
मध्य	स०	नि०	कलीयन संग करता
मन्द्र			

हृ . क उ टी .  
 १ २ २

३ २



तार	सु
मध्य	गु मु धु नि      † नि धु पु मु गु मु . †
मन्द्र	

आ . . . . . १ . . . . . २

तार		सु सु
मध्य	कलीयन संग करता	गु मु धु † नि
मन्द्र		

३      २      आ . . . . . १

तार	रि सु
मध्य	नि      † नि धु . †      कलीयन संग
मन्द्र	

. . . . . २ . . . . . ३

तार		सु सु	रि रि सु रि
मध्य	१ गु मु धु नि		नि
मन्द्र			

आ . . . . .  
२ . . . . . १

तार	गु रि सु	
मध्य	५ नि धु	कलयित संग करता रंगगळीया
मन्द्र		

. . . . .  
२ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . . १ . . . . . २

तार	सु	सु सु
मध्य	धु नि	५ नि गु मु धु नि
मन्द्र		

क ली य . . . . . न आ . . . . .  
३ . . . . . ३

तार	रि रि सु मु मु	गु रि सु	सु रि
मध्य	नि		नि
मन्द्र			

१

तार	गु रि सु	
मध्य	५ नि धु . ५ कलीयन संग करता	रंगरलीया
मन्द्र		

२

३

२

१

२

तार	सु	
मध्य	धु नि	५ नि पु पु म पु मु गु . म
मन्द्र		

क ली य न सं ग क र ता .  
३ २

तार	सु० ५	सु सु
मध्य	सु ५ नि धु नि	ग गु मु धु नि
मन्द्र		

रं ग र ली या आ . . . . .  
१ २ ३

तार	रि रि सु मु मु गु पु पु मु	गु रि सु
मध्य	नि	नि
मन्द्र		

. . . . . २ . . . . . १ . . . . .

तार	सु रि गु रि सु	सु
मध्य	५ नि धु . ५ धु ५ नि	
मन्द्र		

. . . . . २ . . . . . क ली य  
३

तार	
मध्य	५ णि षु षु षु षु षु गु . षु षु ५ नि धु ५ नि
मन्द्र	

न सं ग क र ता . . . रं ग र ली  
 २ १

तार	सु सु सु रि गु . रि सु सु
मध्य	मु ५ नि षु नि
मन्द्र	

या भ व र गुं जा रे फ़ . ली फ़ ल  
 २ ३

तार	
मध्य	५ नि धु . ५ नि षु धु ५ नि धु मु गु मु
मन्द्र	

वा . री च ह . ओ र मो .  
 २

तार	
मध्य	पु रि सु लु रि रि म् ५ नि ५ नि पु गु मु मु
मन्द्र	

र बो ले को य ल की कृ . क सु . नी  
१ २

तार	सु . ५ सु
मध्य	मु ५ नि धु नि धु नि ५ नि पु
मन्द्र	

हृ . क उ ठी क ली य न सं  
३ २

तार	
मध्य	पु मु पु म् गु . मु रंगरलीया कलीयन संग
मन्द्र	

ग क र ता . १ २ ३

तार		सु ङ	स .
मध्य	ग गु मु धु नि		नि ऽ नि ध
मन्द्र			

आ . . . . .  
२                      १२ ३२ १                      २

तार	सु ङ . ऽ सु रि	ॐ . ऽ गु स ऽ ऽ
मध्य	ऽ नि ध	
मन्द्र		

. . . . .  
३ २                      १                      २

तार	सु मु गु . म रि स ऽ ऽ सु गु . म	पु सु गु .
मध्य		
मन्द्र		

. . . . .  
३                      २                      १

तार	मृ ङि सृ . ५ ङि सृ ५ ङि सृ ५
मध्य	नि ५ नि ध
मन्द्र	

२ ३ २

तार	सृ . सृ
मध्य	५ नि ध ५ नि ध ष ध म ष ध म ष
मन्द्र	

१ २ ३ २

तार	
मध्य	गृ मृ ङि सृ . ५ ५ मृ . गु ष . मु ध . पु
मन्द्र	

१ २ ३ २



तार		सु. रि. सु. ५	
मध्य	५ नि. धु	नि नि	कलीयन
मन्द्र			

१ . . . . . २ . . . . . ३

तार		सु सु	
मध्य	संग करता	गु सु धु नि	५ नि धु पु मु
मन्द्र			

आ . . . . .  
२ १ . . . . . २

तार		सु	
मध्य	गु रि धु नि	५ नि पु पु ग	गु सु धु नि
मन्द्र			

. . क ली य न सं ग आ . . .  
३ २

तार	सु रि रि सु
मध्य	५ नि धु पु मु गु रि सु . ५
मन्द्र	

१ . . . . . २

तार	सु	सु सु
मध्य	धु नि	५ नि पु पु ा गु मु धु नि
मन्द्र		

क ली य ३ न सं ग २ आ . . . . . १

तार	गु रि सु	सु
मध्य		५ नि धु पु मु गु रि सु धु नि
मन्द्र		

२ . . . . . क ली य ३

तार	सु ग म प पु म सु
मध्य	५ नि ष ष ग म ध नि
मन्द्र	

न सं ग आ . . . . . २ १

तार	रि सु ष
मध्य	५ नि धु प म ग रि सु ष नि
मन्द्र	

. . . . . क ली य ३

तार	सु ग म ध धु प ध ५ नि
मध्य	५ नि ग म ध नि
मन्द्र	

न आ . . . . . २

तार	धु पु मु गु रि सु
मध्य	५ नि धु पु मु गु रि सु . ५
मन्द्र	

१

२

तार	सु
मध्य	धु नि ५ नि षु षु मु षु सु गु . सु
मन्द्र	

क ली या  
३

न सं ग क र ता .  
२

तार	सु . ५ गु रि सु रि
मध्य	सु ५ नि धु नि नि
मन्द्र	

रं ग र ली या  
१ २ ३

तार	सु	
मध्य	धु ५ नि पु धु सु प गु म रि सु	१ गु सु
मन्द्र		

२

१

तार	सु १	सु . ५	सु
मध्य	धु नि	धु नि	धु नि ५ नि पु
मन्द्र			

क ली य न सं

२

३

तार		सु . ५
मध्य	पु सु पु सु गु . सु	सु ५ नि धु नि
मन्द्र		

ग क र ता .  
२

रं  
१

ग र ला या  
२

तार	१ गृ . सु रिं सु	सुरि गृ . ५	
मध्य		धु नि	गृ सु
मन्द्र			

	३	२	१
तार	सु . ५		
मध्य	धु नि	सु . ५ कलयिन संग करता	रंगरलीया
मन्द्र			

	२	३	२	१	२
तार	सु		सु सु सु		
मध्य	धु नि	५ नि षु षु धु नि			
मन्द्र					

क ली य न सं ग  
३ २

तार		सु सु सु	रि रि रि
मध्य	धु नि		धु नि धु नि
मन्द्र			

	१		२
तार	सु सु सु	गु गु गु	रि रि रि सु सु
मध्य		धु नि	
मन्द्र			

	३		२
तार	सु	सु सु सु	मु मु मु गु गु गु
मध्य	धु नि		धु नि
मन्द्र			

तार	रि रि रि सु सृ सु	सु सृ सु
मध्य		धु नि धु ऽ नि
मन्द्र		

३

२

तार		
मध्य	ऽ नि ऽ नि	धु धु धु पु पु पु सु सु सु गु गु गु
मन्द्र		

१

२

तार		सु . ऽ
मध्य	रि रि रि सु गु सु धु नि	गु सु धु नि
मन्द्र		

३


२



तार	सु . ५	सु . ५	सु . ५
मध्य	गु मु धु नि	सु . ५	
मन्द्र			

		१	२ *
तार	सु		
मध्य	धु नि	५ नि पु पु सु पु सु गु . सु	
मन्द्र			

क ली य न सं ग क र ता . ..  
३ २





# शिक्षण

हेड ऑफिस—मैन्डहार्स्ट रोड,—बम्बई.

ब्रैच ऑफिसें—लाहोर, नागपुर, नाशिक, कोल्हापूर.

इस विद्यालय में गायनवादन (तबला, हारमोनियम, दिखरुना, सतार, फिडल वगैरे) सीखने की व्यवस्था है शिक्षण का समय प्रातःकाल (स्टैं. टा.) ७ से १० और सायंकाल ३ से १० तक रखा गया है.

इस के अतिरिक्त कुलीन शिष्यों तथा कन्याओं को सीखलाने के लिये खास प्रबंध है.

घर बैठे शिक्षणः—जिन सज्जन पुरुषोंके आपने घरमें संगीत शिक्षण केनेकी इच्छा होय उनके लिये व्यवस्था ही सक्ती है.

पुस्तकेंः—गायनवादनकी उपयुक्त किताबें हमारे यहाँ मिलती हैं.

म्युजिकल पार्टीः—विवाह और शुभ अवसर पर गायन-वादन की पार्टी मिलती है.

मैनेजर,

बम्बई.

## संगीत शिक्षणकी क्रमिक पुस्तके.

इस विद्यालय में पं० विष्णु त्रिगंबरजीने संगीत विधापर  
आज तक जो किताबे लिखे हैं उनके नाम और किमत.

	भाग	रु.	आ.	प.
महिला संगीत हिंदी. (हिंदी)	१-२	०	३	०
संगीत तत्वदर्शक.	१	०	२	०
अंकित अलंकार	१	०	२	०
संगीत बालप्रकाश हिंदी और उर्दू.	१-३	२	५	०
स्वरात्म्याप गायन. (हिंदी)	१-४	५	०	०
संगीत बालबोध हिंदी.	१-३	५	०	०
" (उर्दू)	३	१	०	०
गान प्रवेश. (हिंदी)	१-१०	१०	०	०
व्यायामके साथ संगीत.	१-३	१	०	०
संगीत प्रथम भाग १ और संगीत विद्यालय २ हा	...	...	...	...
कल्याण ३ हा भूषावली ३ हा लहर ३ हा	...	...	...	...
मालकण.	...	१०	०	०
सूत्रा और तबलेकी पुस्तक.	...	१	०	०
सतारकी पुस्तक.	१-२	३	०	०
नारदाय विद्या भाषा दीक्षा समेत. हिंदी	१	०	०	०
भजनारवली लहरी.	१-५	३	०	०
मन्त मिस लहरी	०	०	०	०
भजनारवली.	०	०	०	०
राम नामारवली.	०	०	०	०
परिवेदन रीपोर्ट मन्त १९१८ १९१९ से १९२०	१	१०	०	०
राष्ट्रीय संगीत	०	०	०	०

रा० सुकधनकरकृत, (मराठी)

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| १ रामपञ्चावली     | ५ श्रीराम सुमनावली    |
| २ श्रीरामपञ्चमाला | ६ श्रीराम रत्नावली    |
| ३ रामगीतावली      | ७ श्रीराम गायत्रिमाला |
| ४ रामसुक्तावली    | ८ श्रीराम पञ्जावली    |
| ५ राममंत्रावली    |                       |

बेनेजर—गार्गर्ष महा विद्यालय, मुंबई. नं. (४.)

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

# राग प्रवेश.

श्री गान १५ वा. श्री

संपादक, मुद्रक, और प्रकाशक.

मान्य पंडित विष्णु दिगंबर पटुकर.

शारदा, साह्या गाँव इंडियन म्युजिक, मिराठमार्ग.

मौखिक रूप से प्रसारित—पंजाब द्वारा प्रेषित.

सन १९२२.

इस पुस्तक के लिये प्राप्त किया गया सब अधिकार सुरक्षित रखने  
आपने स्वीकार किया है.

प्रथमावृत्ति ] मती ५०० [ मूल्य १॥ रूपया.

"शाहने मता विद्यालय" प्रेष, सिडहार्स्ट रोड पंजाब.

19  
19

\*\*\*\*\*



समाज सेवा के लेखनासति (संवेदन शिस्सु) के  
सम्पत्ति के द्वि संगीत सात्त्विकी को पटना नादिये

## प्रस्तावनिका.

यह मल्हार राग इसके प्रचारमें मियाका मल्हार कहते हैं इसमें जो कयाद लिखा गया है इस पर आलाप, तान, गमक, दोल, तान, इत्यादि परंपरामें जैसा गानेका प्रचार चला आता है उसी तौर पर यह कयाद लेखनपद्धतिके अनुसार लिखा गया है जिस मजनीसो हमारे संगीत लेखनपद्धतिके पढ़नेका अनुभव है वह इस रूप के राग प्रवेशमें मल्हार रागका परिचय अच्छे प्रकारसे प्राप्त करकेयें यह राग जैसा लिखा है वसाही अवाजमें बयाना याथोम निहायजातान तो मल्हार रागकी अच्छा समज होके दुतरे मल्हारके कैएक गानोपर इसके आलाप लेनेमें सहेलता होगी इस लिये संगीत प्रेमी इसमें अवश्य लाम लेगें ऐसी पूर्ण आशा हम करते हैं.

॥ शुभम् ॥

भवदीय,

विष्णु दिगंबर पलुस्कार.





॥ श्रीगुरुदत्त प्रसन्न ॥

# राग मल्हार.

इस राग में गंधार कोमल और दो निषाद लगते हैं एक शुद्ध और दूसरा कोमल, कोमल निषादके वास्ते निशाणी होगी बाकी के सब शुद्ध स्वर.

ताल एकताल.

:0:

तार		
मध्य	०मृ रि सु.	सु.
मन्द्र	नि नि प	॥नि ॥नि ॥नि नि

क रि . . स ना . . म तै  
२ २ १ ३ २

तार		
मध्य		सु सु ॥ रि . सु ०
मन्द्र	॥नि ॥नि ॥नि ॥नि नि	नि

सो . . तू . सा हे  
३ २ २ ३ ३ २ ३ २

तार		
मध्य	रि रिसु सु सु रि पु ग ग ग मु पु मु मु	
मन्द्र	नि नि	

. . . . . व स . ता . . . . .  
२ १ ३

तार		
मध्य	रिसु सु य म रि सु .	म प प व नि
मन्द्र	नि नि	व नि प

. र . . करि . . म ना दु ख द ल  
२ २ २ १ ३

तार	सु सु रि सु सु	स सु
मध्य	व नि नि नि	नि व नि व नि नि
मन्द्र		

. इ इ र की . . अ सु ख र्हे . हो  
२ ३ २ २ १ ३ २

तार	० सु रि सु.स	
मध्य	नि ध नि षु षु षु नि नि षु	
मन्द्र		

स . ब . न को . . अ दा . . रं .  
 ३ २ २ १ ३ २

तार		
मध्य	पु.पु०पुधुपुपु.गगमु०रिसु	रि०सुस
मन्द्र		

. ग वि . न . ती . . क र त र हे  
 ३ २ २ १ ३ २

तार		स सु.
मध्य	पु पु पु नि. नि षु षु नि	नि नि षु
मन्द्र		

सु न ले . . हो . . . . . क र  
 ३ २ २

तार	
मध्य	गं गं गं मुपुमुमुरिसु सु५मुरि सु.
मन्द्र	नि नि
	ता . . . . . करि . . . १ ३ २ २ २ २

तार	
मध्य	१सु सु सु५मुरि
मन्द्र	५नि प॥ नि ५नि धुनि नि
	म ना आ . . . . . करि १ ३ २ ३ २

तार	
मध्य	सु. १सु. सु. रि
मन्द्र	नि ५नि प॥ नि ५नि धुनि
	. . म ना आ . . . . . २ १ ३ २ ३ २ २

तार		
मध्य	। स. सु रि सु.	सु सु५मरि
मन्द्र	नि ५नि. धुनि नि	

..... करि  
१ ३ ..... २ ३ २

तार		
मध्य	सु. । सु । सु	स. ५स
मन्द्र	नि निप	नि ५नि. धुनि

..... म ना आ .....  
२ १ ३ २ ३ २ २

तार		
मध्य	रि. सु स रि ग ग ग म रि । स. सु रि सु.	
मन्द्र		नि

.....  
१ ३ २ ३ २ २ १ ३

०५.

५

तार	
मध्य	स सु५ मृ रि सु ५
मन्द्र	√नि. धुनि नि नि नि प
	२ . . . ३ २ करि . . म ना

तार	
मध्य	१. स रि प गं गं गं मु पु मु मु रि । स
मन्द्र	नि
	आ . . . २ . . . २ १ ३

तार	
मध्य	स सु५ मृ रि सु.
मन्द्र	√नि. धुनि नि नि नि प
	. . . . करि . . म ना
	२ . . . ३ २ २

तार		
मध्य	सु . I स रि प्	I प पु ष्णि .
मन्द्र	ॲनि ॲनि ॲनि नि	

. . . म आ . . . . .  
१ . . . ३ २ ३ २ . . . २ १ ३

तार		
मध्य	ॲनि ॲनि म प ० पु धु मु षु .	ग ग ग मु पु मु मु
मन्द्र		

. . . . .  
२ . . . ३ . . . २ . . . २ . . . १

तार		
मध्य	ॠ रि स .	स सु ष् म रि
मन्द्र	नि ॲनि . धु नि	नि नि

. . . . . क रि .  
३ . . . २ . . . ३ . . . २ . . . २

तार		
मध्य	सु.	*स रिपु I पपु० नि. ० नि ० नि.
मन्द्र	० नि प	

म ना आ . . . . .  
१ ३ २ ३ २ २ १

तार	स	सु I	सु.०१ सुरि
मध्य	मुपुप ० नि नि	नि नि	नि
मन्द्र			

३ २ ३ २ २ १ ३

तार	सु. I	स I
मध्य	नि ध ० नि मुपुप ० नि. ध	ध नि
मन्द्र		

२ ३ २ २ १ ३



तार	
मध्य	सु पु .० पु धु सु पु ङ ग ग सु पु सु मु ङ रि
मन्द्र	

२ . . . . . ३ ३ . . . . . २

तार	
मध्य	इ सु सु सु ङ सु रि सु .
मन्द्र	नि ऽ नि . धु नि नि नि

१ ३ . . . . . ३ ३ . . . . . करि . . . . . २

तार		
मध्य	५ ५ . सरि पु . पु पु ऽ नि . ऽ नि	
मन्द्र	५ नि पु	

म ना आ . . . . .

१ ३ २ ३ २ २ १ ३ २

तार		सु.	स.
मध्य	ग प १ १ प	॥ नि नि	॥ नि धु नि नि
मन्द्र			

३ २ २ १३ २ ३ २

तार	सु. I स रि	I स तरि ग	ग ग म रि स स
मध्य			॥ नि.
मन्द्र			

२ १३ २ ३ २ २ १ ३

तार	सु० स रि	सु. I
मध्य	धु नि	नि ध ॥ नि मू प ॥ प ॥ नि.
मन्द्र		

२ ३ २ २ १

तार	स
मध्य	धु धु० निमप ० पधुमप . I गं गं गं सुपुम
मन्द्र	

३ २ ३ २ २ १\*

तार	
मध्य	मुरिस सु सुधमुरि सु
मन्द्र	० नि . धुनि नि नि ० निप

३ २ ३ २ करि . . म ना

तार	स
मध्य	१ सुपुधुनि धु० निमपगुम रिस ० मुरि
मन्द्र	नि

१ ३ २ ३ २ करि . २

तार		सुरि. सु.
मध्य	सु५	मपुधुनि नि धु५नि
मन्द्र	५नि प	
म ना आ . . . . . १ ३ २		

तार		
मध्य	मपुगुमरिसु०मरि सु.	मपुधु
मन्द्र		नि ५नि प
. . . . . करि . . म ना आ . . ३ २ २ १		

तार	सुरिगुमु५रि सु.
मध्य	नि नि धु ५निमपुगु मरिसु०
मन्द्र	
. . . . . ३ २ ३ २	

तार		सुरि षुग म रि
मध्य	म रि सु.	मुपुधुनि
मन्द्र	नि षुनि षु	

क रि . . . म ना आ . . . . .  
 २ १ ३

तार	सु	
मध्य	नि धु षुनि षुग म रि सु षु रि सु.	
मन्द्र		नि षुनि षु

. . . . . क रि . . म ना  
 २ ३ २ २

तार		
मध्य	सु सु. षु रि सु. I	
मन्द्र	षुनि. धुनि नि नि धु षुनि षु	

अ। . . . . .  
 १ ३ २ ३ २ २

तार	
मध्य	
मन्द्र	० पुधुमुपु . गगगमुपुमनुरि . स . भु.।स

नि

१ . . . . . ३ २ . . . . . ३ २ . . . . . ०

तार	
मध्य	स सुमुरि सु
मन्द्र	रिपुपु . पुनि . धुनि नि नि

. . . . . करि .  
१ ३ . . . . . २ . . . . . ३ २ . . . . . २

तार	
मध्य	स सु.मुरि सु
मन्द्र	निपु * . पुनिधु नि नि निपु

म ना आ . . . . . करि . . . . . म ना  
१३२ ३ . . . . . २ . . . . . २

तार	
मध्य	५० सु रि पु ग म रि सु ० म रि सु ५
मन्द्र	नि ५ नि प
	आ . . . . . करि . . म ना
	१ ३ २                      ३                      २                      २

तार	
मध्य	१. सु रि पु ५ नि म पु ग म रि सु ० म रि सु.
मन्द्र	नि
	आ . . . . . करि . .
	१ ३                      २                      ३                      २                      २

तार		सु
मध्य	१ सु रि पु ५ नि धु	धु ५ नि म पु ग म
मन्द्र	५ नि प	
	म ना आ . . . . .	
	१ ३                      २                      ३	

तार		सुरि
मध्य	रिसुंमुरि सु.	सुरिपु वनिधु
मन्द्र	नि निप	

. . करि . . म ना आ . . . . .  
 २ २ १ ३

तार	सु	
मध्य	नि धु वनिमुपुगुमुरिसुंमुरि सु.	
मन्द्र		नि वनिप

. . . . . करि . . म ना  
 २ ३ २ २

तार	स रिसमसरि स
मध्य	स म रिपम वनिधु नि नि धु
मन्द्र	

आ . . . . .  
 १ ३ २



तार	
मध्य	५ निमप ग नरिस ० मुरि सभरिप म ५ नि
मन्द्र	

..... क रि आ .....  
 ३                      २                      ३

तार	स	रिभमगपरिवसरि	स
मध्य	ध्व	नि	नि ध्व ५ निमप
मन्द्र			

.....  
 १                      ३                      २                      (०)

तार		
मध्य	ग म रि स ० मुरि सु.	मपप ५ नि
मन्द्र	नि	५ नि प

..... क रि . . . म ना दु ख द ले  
 ३                      २                      २                      १                      ३

तार	सुसुरि	सुस
मध्य	वनिनि	नि
मन्द्र		

द्र दूर की . . ज तु ख द ले .  
२ ३ २ २ १ ३ २

तार	सुसुरि	सु	सु	सु
मध्य		नि	नि वनि	नि
मन्द्र				

दु ख द ले . . द्र दूर की . .  
१ ३ २ २ ३ २ २ ३ २

तार	सुसुरि	सु
मध्य	सपप वनि वनिनि	नि
मन्द्र		

दु ख द ले . . द्र दूर की . .  
१ ३ २ २ ३ २ २ १ ३

तार	सुरिस	स सु.५	
मध्य	धुनि	१नि.धुनि	नि मपप
मन्द्र			

..... दु ख द  
 २ ३ ० २ १ ३

तार	सुसुरि सु	I सु.
मध्य	१नि१निनि	नि १नि.धुनि
मन्द्र		

ले . द्र द्र र की . . . . .  
 २ ३ २ २ १ ३ २

तार	स सु.५	
मध्य	सप १नि.धुनि	नि मपप १नि१नि
मन्द्र		

..... दु ख द ले .  
 ३ २ २ १ ३ २

तार	सु स रि सु	सु स रि सु
मध्य	नि नि	१ नि . धु नि नि
मन्द्र		

३ २ २ १ ३ २ ३ २

तार	सु स रि गं गं म रि सु
मध्य	१ नि . धु नि नि . धु नि
मन्द्र	

२ १ ३ २ ३ २

तार	सु सु.५	सु
मध्य	नि	म प प १ नि १ नि नि मू प धु नि
मन्द्र		

२ १ ३ २ ३ २

तार	रि सु सुसु.५	
मध्य	नि निधुनि	* * सुरि सु
मन्द्र		नि

इ हू . र . की . जे आ . . .  
२ १३२३ २

तार			सु.
मध्य	पुगुमरि	सु.०पुधुमपुगुमरि	सु.
मन्द्र		नि	नि

२ . . . १ . . . ३ . . . २ . . .

तार	सु		सुरि सु
मध्य	धु ५निमुपुगुमरि	सु	नि धु
मन्द्र			नि

. . . ३ . . . २ . . . २ . . .

तार	म० मु० रि० सु०
मध्य	१ नि० मु० पु० ग० म० रि० सु० ११ नि० ध०
मन्द्र	नि०

१ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . . ३

तार	मु० पु० मु० मु० रि० सु०
मध्य	१ नि० मु० पु० ग० म० रि० सु० ५ नि० ध० १ नि०
मन्द्र	

. . . . . २ . . . . . २ . . . . . १ . . . . .

तार	सु०
मध्य	मु० पु० ग० म० रि० सु० सु० मु० रि० पु० मु० नि० ध० ग० म० रि०
मन्द्र	

. . . . . ३ . . . . . २ . . . . . ३

तार		
मध्य	सु५म०रि सु०	
मन्द्र	नि	नि ५निपु * १ पुपुपु ५नि.धु
	करि . . मना करिम ना .	
	२ २ १३२ ३	

तार		
मध्य	सु सु रि स लु म०रि पु ग म०रि स लु म०रि पु ५नि	
मन्द्र	नि	
	म ते रो तू . . सा. हे. व . . .	
	२ २ १ ३ २	

तार		
मध्य	सु पु ग ग नु रि सु५म०रि सु०	
मन्द्र		नि नि ५नि पु
	स ता . र . करि . . म ना	
	३ २ २	

तार	
मध्य	स स म रि प ष प १ १ नि न प प
मन्द्र	१ १ . १ नि

करि म ना . . म ते . . रा  
 १ ३ २ ३                      २                      २

तार	स १ १ १
मध्य	१ प नि ध                      ध प ल प ध म प १ ग ग ग म रि
मन्द्र	

तू . . . सा . . . . . हे व म ना .  
 १                      ३                      २                      ३

तार	
मध्य	सु सु १ म रि सु १                      १ १ सु पु वु नि
मन्द्र	नि                      नि                      १ नि प

र . . करि . . म ना ए . . .  
 २                      २                      ३



तार	स	स.	स.सु०सुरि	सु.०
मध्य	नि.धुने	निधुनि		नि
मन्द्र				

. . . क री . . . म ना म ते . . .  
 २                      २                      १    ३                      ३

तार	सु
मध्य	धुनि सुधु०पु निधु    धुपसुपधु सुपुगुभरि
मन्द्र	

रो . . . तु . . . सा . . . . . हे . व  
                     ३                      २                                      २

तार	सु
मध्य	स सु सुरिपमनिधुनि    धुनि सुपुगुम रिसु०
मन्द्र	

. स ता . . . . . र  
 १                      ३                                      २                      ३                      २

तार		सु स
मध्य	मुरि सु	मपुवुनि नि निधुनि
मन्द्र	नि निप	

क री . . म ना ए . . . करि . . म  
२ १ ३ २

तार	सु. सु सु रि सु. सु मरि मरिसु	सु रि
मध्य		नि नि
मन्द्र		

ना म ते . रो तू . . सा . . . हे  
३ २ २ १ १

तार	सु.	सु रि
मध्य	ध पम पधम पुगु गुमुरिस मपुधुनि	
मन्द्र		

. व . . . . स ता . र . धा . . . .  
३ २ ३

तार	सुसु	
मध्य	धुपुसु सुरिसुमुरि सु५	* * * * * मुपु
मन्द्र		नि निप

..... करी . . म ना ए .  
 २ २ १३२३२

तार	सु सु.सु	सु
मध्य	धुनि नि	धुपु रिपु.मुनि.धुनि
मन्द्र		

..... करि . म . ना . . . . .  
 २ १ ३

तार	सुसु रि ५सु सुमु रिपु गुमुरि सु५	
मध्य		नि निमुपुगु
मन्द्र		

म ते . रो वृ . . सा . हे . . व . . स  
 २ ३ २ २

तार			सु रि
मध्य	गु म् रि सु	१	सुरिम् पुनि निपुम पुनि
मन्द्र			नि

ता . र . . . . . १ . . . . . ३ . . . . . ५

तार	रिसु सु		
मध्य			धुप मप धुप मप रिम सुरि नुम रि
मन्द्र			नि

. . . . . क रि .  
३ . . . . . २ . . . . . ५

तार			
मध्य	सु ५	१.	सु रि रि सु रि पु पु नु
मन्द्र	नि प	मप धुनि	नि

म ना . . . . . १ ३ . . . . . ५ . . . . . ३

तार	
मध्य	मुरिसु सुरिसुसु
मन्द्र	नि धुपु मपु धधु पुपु रिम सु

२

२

तार	
मध्य	सु रिरि
मन्द्र	रिसु सुसु सु रिरि पुपु धधु पुपु धुनि

१

३

तार	
मध्य	सुरि पुपु ममु रिमपु धधुम परिम मुरि सुम
मन्द्र	नि

..... क  
२ ३ २

तार		
मध्य	रि सु५	सुरिरि सुरिपपुम
मन्द्र	नि णि पु मप धुनि	नि
	रि . . . म ना . . . . .	
	२	३

तार		सुरिरि सु
मध्य	सुरि मप धुध मप धुनि	निधुमपधु
मन्द्र		
	२	३
		२

तार		
मध्य	धुप पुरि सुम रि सु म रि	
मन्द्र		णिपु * * सुप धुनि
	. . . . . करी म ना . . . . .	
	२	१ ३ २ ३ २

तार		
मध्य	सुरिरे	सुरे पुपु मुमु रिमु पुध धुधु पुधु नि
मन्द्र	नि	

	२	१	
तार	सुरिरे	सुरिमुनरिसु	सुरिरिसुसु
मध्य	नि	नि	धुपुमु
मन्द्र			

	३	२	३
तार			
मध्य	पुधुधुपुपु	रिसुमु रिसु सु. मुरिसु	
मन्द्र		नि	नि पु

..... क री म ना .  
 २ २

तार	
मध्य	सुररिरे सुरिपुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसु
मन्द्र	१.सुपुधुनि नि

	१३	२	३
तार		सुररिरे	सुरिसुसुसुसुसुसुसुसुसुसु
मध्य	धुधुसुपुधुनि	नि	
मन्द्र			

	२	२	
तार	सुपुसुसुसुसुसुसुसुसुसुसु	सुररिसुसुसुसुसुसुसुसुसुसु	सुररिसुसुसुसुसुसुसुसुसुसु
मध्य	नि	धुधुसुपुधुनि	
मन्द्र			





तार	सु५	सुरि.स
मध्य	नि	मपपनि नि सुपधुनि नि.
मन्द्र		

. . . दु ख द ले . प . . . . .  
१ ३ २ ३ २

तार	स सु५	सुसुरिपुगु
मध्य	धुनि नि	मपपमुपधुनि
मन्द्र		

. . . दु ख द्र प . . . . .  
२ १ ३ २

तार	सुरिस	स सु५
मध्य	नि.धुनि नि	मपपनिनिनि
मन्द्र		

. . . . . दु ख द ले . द्र  
३ २ . २ . १ ३ २

तार	स॒ स॒रि॒	स॒स॒
मध्य	नि॒	म॒प॒प॒नि॒नि॒नि॒। म॒पु॒
मन्द्र		

हु॒ र॒ की॒ . . . जै॒ दु॒ ख॒ व॒ लें॒ . . . द्र॒ दु॒ ख॒  
 ३ २ २ १ ३ २ ३२

तार	स॒	स॒	सु॒स॒	सु॒रि॒
मध्य	पु॒नि॒	धु॒नि॒	नि॒धु॒नि॒	नि॒ नि॒
मन्द्र				

द॒ लें॒ . . . द्र॒ दु॒ र॒ . . . की॒ . . . जै॒ सु॒ ख॒ दे॒  
 २ १ ३ २ ३

तार	स॒	स॒
मध्य	नि॒ धु॒नि॒	म॒प॒प॒धु॒नि॒ नि॒प॒गु॒म॒रि॒सु॒सु॒
मन्द्र		

. . . हो॒ . . . स॒ व॒ . . . न॒ को॒ . . . आ॒  
 २ २ १ ३ २



तार		
मध्य	रि सु	*१.रिरिसुसुपुपुगुमरिसु
मन्द्र	नि निप	

री . . म ना क . रि . म . ना . म .  
 २ १३२३ २ २

तार		
मध्य	१नि नि पु मु पुगु मरिसु	सुरिसुपु नि नि पु मु
मन्द्र		नि

ते . रो . . तू . सा . . . . . हे .  
 १ ३ २

तार		
मध्य	पुगुमरि.सु सु.मरि सु.	*११११
मन्द्र	नि नि निप	

. व स ता र . . करी . . म ना ए  
 ३ २ २ १३२३२

तार	सरिसस	सस ग मरि
मध्य	पध नि	धपमपधनि
मन्द्र		

ना . . . . . म ते . रा  
० १

तार	स सरि स	
मध्य	नि नि ग मरिस	सरिसनिनि
मन्द्र		नि

तृ . मा हं . . . . . व म .  
३ २

तार	सरिरिसस	
मध्य	पमपनि	धपम पधधप परिमम
मन्द्र		

ता . . . . . ३

तार		
मध्य	रि सु    सु मुरि    सु ५	५. सु रि
मन्द्र	नि            नि            नि ष	नि
र . . . करि . . म ना आ . . २                    २                    १३२ ३		

तार	
मध्य	सु १ सु सु रि सु    सु पु धु सु पु रि सु सु
मन्द्र	नि
. . . . . २ . . . . . २ . . . . .	

तार		सु. सु
मध्य	रि सु    सु. ५	धु पु सु सु रि सु सु ५. ५
मन्द्र	नि	
. . . . . १ . . . . . २ . . . . .		





तार		
मध्य	सुरिसुसुरि सु.	१.
मन्द्र	नि निप	पुपुपुनिधु
. . . करी . . म ना करि म ना .		
२ २ १३ २		

तार	
मध्य	सुसुपुगुगुगुसुरिसुसुरि
मन्द्र	नि निप
म ते रो तु सा हे व स तार करी म ना	
३ २ २	

तार	सुरि सुसु सु
मध्य	१.नि नि निपु निपुपुपुगुसु
मन्द्र	
करि म ना . म ते रो तु सा हे व स ता .	
१३ २ ३ २	

तार		रि रि सु सु
मध्य	रि सु मृ रि सु	नि पु म प ग
मन्द्र	नि नि ष	

र . क री . . म ना क . री . म . ना . म  
 २ १ ३

तार		
मध्य	सु ग व रि सु म म रि रि प प म म नि नि ए म प नि	
मन्द्र		

. ते . गो . तु . मा . ते . व . म . ता . . .  
 २ ३

तार	सु रि रि सु सु	
मध्य	धु प सु म रि सु म रि	१ रि सु १
मन्द्र		नि ष

. . . . . क री म ना क री  
 २ २ १ ३

तार	
मध्य	गुं गुरिसुं निं नपुगुं गुरिसुं गुरिसुं
मन्द्र	निं पुं

प ना म ते रो तु सा हे व स त, र क रो म ना म  
 २ ३ २ २

तार	सुं
मध्य	१ सुरि सुसुपुगुं निपुं निपुं
मन्द्र	निं निं

क रो म ना . म ते रो तु सा हे व स ता  
 १ ३ २ ३ २

तार		
मध्य	गुरिसुं गुरिसुं	सुरि सुसुसुरिपुं
मन्द्र	निं पुं निं निं	निं

. र क रो म ना म क रो म ना . म ते . रो तु  
 २ १ ३

तार	सुसु
मध्य	नि नि नप निप पग मम रि म रि रि रि
मन्द्र	

सा हे व स तार क री म ना म क पी म ना म क  
 २ ३ २ २

तार		सुरिसुसु	सुसु
मध्य	सुरि	* *	धुप मुप धुनि
मन्द्र	निप		

री म ना म ना . . . . .  
 १३२३२ २

तार		
मध्य	धुप ग	नुरिसुरिरे सुरिपुप ममरिमपध
मन्द्र		नि

म . ते . रो . तू . सा . . . . .  
 १ ३ २

तार	सुरिरिसु	
मध्य	धुमपुधुनि	निपुगुमरिसु मरि
मन्द्र		नि

. . . हे . . . . व . सता . र . करी .  
 ३ २ २

तार		सुरिसुसु	
मध्य	सुप	* सुपुधुनि	धुपुमम
मन्द्र	निप		

. म ना आ . . . . .  
 १३२ ३ २

तार		सुरिमम	
मध्य	रिसु मरिसु	* सुपुधुनि	
मन्द्र	निपु		

. . क री म ना म आ . . . . .  
 २ १३२ ३

तार	रिसुसु	
मध्य	धुपु मु मरि म्म रि सु	* मु पु धु
मन्द्र		नि ष
. . . . . क री म ना म आ . . . . .		
	२	२ १३ २

तार	सुरि मुपुप म्म रि सुसु	
मध्य	नि	धुपु म्म रि सु म्म रि
मन्द्र		
. . . . . क री		
	३ २ २ १ ३ २	

तार	मू.पुम मरि सु	सुरिमुपु
मध्य	सु	धुपु मुप धुनि
मन्द्र	नि ष	
म ना म आ . . . . .		
	१	३ २

तार	पु म रि सु सु
मध्य	धुपुम सुरिसु ५१ मुरि सु ५
मन्द्र	नि
<p>..... क रो . .</p> <p>३ २ २</p>	

तार	
मध्य	* T रि रि सु रि रि सु ५ पु पु सु पु पु
मन्द्र	नि पु नि
<p>म ना आ . . . . .</p> <p>१३ २ ३ २</p>	

तार	
मध्य	रिसुम सुरि रिसु सु रिनु पुनि धुम पु धुनि
मन्द्र	नि
<p>.....</p> <p>२ १</p>	

तार	सुरि रिसुरि रिससु.	सु सु
मध्य	धु पु नु पु धुलि	
मन्द्र		
३		२

तार		
मध्य	धुपुम पुधधु पुपरिसुम रिसु सु सुरि रि	
मन्द्र	नि नि	
३		२

तार		सु रि
मध्य	सुसु रिपु पुपु सु रि मुपु धुधु मुपु धुनि	
मन्द्र		
२		१





तार	
मध्य	धुपधुधु सुपरिसु सुरित सु५मुरि सु५
मन्द्र	नि नि

..... क री . . .  
३ २

तार	
मध्य	*.T रिरि सुरिपएमल रिमपधधम
मन्द्र	निप नि

म ना क . री . . . . . म  
१३२३ २

तार	सुरिरि सरिसरिस ससमपपम
मध्य	पध नि नि नि
मन्द्र	

..... ना . . . . . म . ते . रो म  
२ १

तार	म॒रि॒स	सरि॒रि॒सस	सरि॒
मध्य	नि	ध॒प॒म॒प॒ध॒नि	नि
मन्द्र			

. . . . . तू . सा . . . . . ३

तार	स		
मध्य	ध॒प॒म॒प॒ध॒म॒प॒गु॒म॒रि॒सु	सु॒गु॒रि॒सु	
मन्द्र		नि	नि

. व . . . . स . ता . र . . . . . करी .  
२ ३ २ २

तार		सु	
मध्य	सु॒	म॒प॒प॒नि॒ध॒नि	नि॒ध॒नि
मन्द्र	नि॒०॒५॒०॒५		

. मना करीमना . मते . . रो  
२ १ ३ २ २

तार	सू	सू	सुमु	रिपु	गुमु	रिसु	सुमु	रि.
मध्य	निधनि							
मन्द्र								

... तू . सा . . . हे . व . स ता .  
 २ १ ३ २

स

तार	पुम.	निवु.					
मध्य			गुमरिसु	सु.मरि	सु		
मन्द्र			नि		नि		

... . . . र . . . करा . .  
 ३ २ २

तार		सरिगमपमरिसस					
मध्य		मपधनि				ध प	
मन्द्र	निपु.५						

म ना . . . . .  
 १ ३

तार	सरिसस ॥ □ ॥
मध्य	सपधनि                  धपमपधनि                  धपमपध
मन्द्र	सु

. . . . .  
                         २    ३

तार	
मध्य	धपपरिममरिसु सु.मरिसु
मन्द्र	नि    नि पु. ५

. . . . . करीमनाम  
                         २    २





# शिक्षण

## गांधर्व महा विद्यालय.

हेड ऑफिस:—सैन्ट्रल रोड,—बम्बई.

ब्रैच ऑफिसें:—लाहोर, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर.

इस विद्यालय में गायनवादन (तबला, हारमोनियम, दिरुखा, सारंग, फिडल वगैरे) सीखने की व्यवस्था है शिक्षण का समय प्रातःकाल (स्टैं. टा.) ७ से १० और सायंकाल ३ से १० तक रखा गया है.

इस के अतिरिक्त कुकीन बिर्यो तथा कन्याओं को सीखलाने के लिये खास प्रबंध है.

घर बैठे शिक्षण:—जिन सज्जन पुरुषोंके आपने परम संगीत शिक्षण लेनेकी इच्छा होय उनके लिये व्यवस्था है.

किताबें:—गायनवादनकी उपयुक्त किताबें हमारे यहां

अच्छल चाटी:—विवाह और शुभ अवसर पर गायन.

चाटी मिलती है.

मैनेजर,  
विद्यालय, बम्बई.





॥ श्रीगुरु दत्त प्रसन्न. ॥

# राग प्रवेश.

भाग १६ वा.

संपादक, मुद्रक, और प्रकाशक.

श्रीमान् पंडित विष्णु दिगंबर पट्टाचार.

मुद्रणालय,

दिल्ली

३  
मार्च



॥ श्रीराम प्रसन्न ॥  
देशी खमाज.

इस रागमें दो मध्यम और दो निषाद लगते हैं एक शुद्ध और दूसरा अतिकोमल निषाद कोमलके वास्ते और मध्यम तीव्रतरके वास्ते निशाणी होगी.

ताल धुमाळी.

—:0:—

तार			
मध्य	० गू पु पु धु	गू पु मू गू रि गू	सु. ५ रि गू मू गू
मन्द्र		नि	

जै . जै . ना . रा . . . य ण हा . . री  
३ २ १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	सू रि रि . गू गू	गू मू पु धु ५ नि धु पु मू गू रि गू	
मन्द्र	० नि		

जै जै ना रा य ण हा . . . . . री . . . .  
३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार					
मध्य	गुध्रुपु	गु पु मगु रिगु	सु. ५	रिगु मगु	नि
मन्द्र			नि		

जै . जै ना . रा . . . य ण हा . . री जै  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार	सु.			सु.
मध्य	नि नि	प पु	पु ध्रु . ध्रु ५ नि . नि	५ नि ध्रु
मन्द्र				

जै ना रा य ण हा . . . . री .  
 २ १ २ ३ २ १ २ \*  
 \*

तार					
मध्य	पु गु सु पु ध्रु पु	गु पु मगु रिगु	सु. ५		
मन्द्र			नि		

. जै . . . जै ना . रा . . . य ण  
 ३ २ १ २ ३ २

तार			
मध्य	रिगु मृग १गुमुपुधुधु	धध. धधु	५निधुपु
मन्द्र			

हा . . . री जै . . . . जै ना रा य ण हा . .  
 १ २३ २ १ २३ २ १

तार			
मध्य	△मुपु I I १गुमुपु निनि	निनि. निनि	
मन्द्र			

. री जै . . . . जै ना रा य ण  
 २३२ १२३ २ १ २ ३ २

तार	सु १	रिसुरि सु
मध्य	धु धु	I. निसु ५ धु नि
मन्द्र		

हा री . . . . जै . जै . ना .  
 १ २३ २ १२३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	ध्रु५	नि०	पु० ध्रु० सु० पु० गु० म० रि० गु० सु० १ सु० ५
मन्द्र			नि

रा . . . य ण हा . . . री जै जै  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	रि० रि० ग० गु० गु० मु० पु० ध्रु५	नि० ध्रु० पु० सु० गु० रि० गु० गु०
मन्द्र		

ना रा य ण हा . . . . . री . . . . . जै  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	ध्रु० पु० गु० पु० म० गु० रि० गु० सु० ५	रि० गु० म० गु० १ ५
मन्द्र		नि

. जै ना . रा . . . य ण हा . . . री  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	सु रि सु रि ग रि गु म गु म पु म पु ध पु ध	
मन्द्र	नि	

ॐ . . ॐ . . ना . . रा . . य . . ण .  
१ . . २ . . ३ . . २ . . १ . . २ .

तार	सु	
मध्य	५ नि धु ५ नि ५ नि धु पु म पु धु ५ नि धु पु म गु	
मन्द्र		

. हा . . . . . री . . .  
३ . . . . . १ . . २ .

तार			
मध्य	रि गु ० म ध पु	गु पु म गु रि गु	सु ५ रि गु म
मन्द्र		नि	

. . ॐ . ॐ ना . रा . . . य ण हा . .  
३ २ १ २ ३ २ १

तार		रि सु३	
मध्य	ग०निनिनि नि	नि	ममरिगुमप
मन्द्र			

री जै जै ना ग . . . य ण हा . . .  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार	सु	
मध्य	धुनि	निधुगुनपधुपुगुपुगु
मन्द्र		

. . . . री . . . जै . . . . . जै ना . ग .  
 २ १ २ ३ २ १ २

तार		सु.रि सु
मध्य	रिगु सु.५	रिगुमगु०.५ नि. धु.
मन्द्र	नि	

. . य ण हा . . री जै जै ना रा य  
 ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३



तार							
मध्य	५	नि०	धु०	सु०	पु०	गु०	गु०
मन्द्र						नि०	

ण हा री जै जै ना रा य ण हा री  
 २ १ २ ३ २ १२३२

तार					सु	सुरिसु
मध्य	सु	पु	धु	नि		
मन्द्र						

१२३२ १२३२ १२३२ १२३२ १२३२ १

तार					सु			
मध्य	५	निधु	पुसुग	रिसुसु	रिगुसु	पुधुनि	५	निधु
मन्द्र								

२ ३ २ १ २

तार		
मध्य	पुमुगुरि सुगमुपधुपु गपु सुगुरिगु सु.५	
मन्द्र		नि

... . जै . . . जै ना रा . . . य ण  
३ २ १ २ ३ २

तार			
मध्य	रिगु सुगु गगु मुपुपु	पप.पपु	पुरि.रिमु
मन्द्र			

हा . . री जै . . जै ना रा य ण हा . री .  
१ २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार			
मध्य	रुगुमुधु.धु	धध.धधु	निम.मुपु
मन्द्र			

जै . . जै ना रा य ण हा . री .  
१ २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार			स०
मध्य	१२३	मुपुनिनिनिनि. निनि	निध. धु
मन्द्र			

जै . . . जै नारा य ण हा . सी .  
 १ २ ३      २      १ २ ३ २      १ २ ३ २

तार		सु रिगु	ग ग . ग ग	गुप मुगुरिसु
मध्य	१२३	पुधु		
मन्द्र				

जै . . . जै नारा य ण हा . सी . . .  
 १ २ ३      २      १ २ ३ २      १ २      ३

तार		सु रि	गु मु ग	रिसु
मध्य	१	निधुपुधु		१ निधुपु मुगुरिसु
मन्द्र				

. . . २ . . . १ . . . २ . . . ३ . . .

तार			
मध्य	रि गु ध्रुप	गुपुगुगुरिगु	सु.५ रि गुगुगु
मन्द्र			नि

. जै . जै ना . रा . . . . य ण हा . . . . री  
 २ १ २ ३ २ १ २

तार			सरिग मगु
मध्य	सु.५ रि रि . ग गु	गमपध	
मन्द्र	० नि		

जै जै ना रा य ण हा . . . . .  
 ३ २ १ २ ३ २ १ २

तार	रिस	
मध्य	५ निध्रुपमगरिगगुध्रुप	गु पुम गु रिगु
मन्द्र		

. . . . . री . . . . . जै . जै ना . रा . . . .  
 ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	सु.५	रिगुमृग	सु.५   रि रि . ग गु
मन्द्र	नि	०नि	
	य ण २	हा . . १	री . जै . जै २ ३ २
			ना रा य ण १ २ ३ २

तार			
मध्य	म नि धु	५ निप धु ग धु	गुपुमृगरिगु सु.५
मन्द्र			नि
	हा . . १	री . जै . ३ २	जै ना . रा . . . . १ २ ३ २
			य ण ३ २

तार			
मध्य	रिगु मृग	सु.५ रि रि . ग गु	गुमपुमपु
मन्द्र		०नि	
	हा . . १	री . जै . जै २ ३ २	ना रा य ण हा . . . . १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	धु प मु धु प	गु पु म ग रि गु	सु . ५ रि गु म ग
मन्द्र		नि	

. री जै . जै ना . रा . . . य ण हा . . री  
३ २ १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	सु रि रि . ग गु	गु म पु धु ५ नि धु प म ग रि	
मन्द्र	१ नि		

जै जै ना रा य ण हा . . . . री . . .  
३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	गु गु धु प	गु पु म ग रि गु	सु रि गु म ग १
मन्द्र		नि	

. जै . जै ना . रा . . . य ण हा . . री  
२ १ २ ३ २ १ २ ३

तार	ससुसुसु	सु.१.१	सुरि
मध्य	नि नि नि	धु१ ध	नि
मन्द्र			

जै जै नारायण हा . सी . . .  
 २ १ २ ३ २ १२३२ १२३२ १

तार	सुरिसु	सु सु
मध्य	५निधु. ५वु ५नि	५नि ५निधुपु. ५
मन्द्र		

. . . . .  
 २ ३ २

तार	
मध्य	पधु ५निधु ५निधुपु. ५मपधु पत्रपसु. ५
मन्द्र	

. . . . .  
 १ २ ३ २

तार	
मध्य	गुम पुम पुम गुरु . ॐ रिग मुग मुग रिसु . ॐ
मन्द्र	

.....  
 १            २                    ३            २

तार		
मध्य	गगरि सरि	मनपगन
मन्द्र		

.....  
 १            २            ३            २            १            २

तार	लसरि	स	गगरि सरि	मनपगन	पुपुम
मध्य		नि			
मन्द्र					

.....  
 ३            २            १            २            ३            २            १



तार	गुरिसु	सुरेगमगरेसु
मध्य	५ निवुपुवु	५ निवुपुमगु
मन्द्र		

२ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . . १ . . . . . २

तार			
मध्य	रिसु गवुवु	गुपुमगुरिगु	सु ५ रिगुमगु
मन्द्र		नि	

. . . . . ज . . . . . यण . . . . . हा . . . . . री  
३ २ १ २ ३ ५ १ ३

तार			
मध्य	सु ५ रिरि . गगु गुनु पुधु	५ निवुपुम	गुरिगु
मन्द्र	१ नि		

जं जै . . . . . हा . . . . . री . . . . .  
३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	गु धु पु	गु पु ङु ग रि गु	सु . ५ रि गु म गु I . ९
मन्द्र		नि	

झै . झै ना . रा . . . य ण हा . . . री  
 २ १ २ ३ २ १ २३२

तार			
मध्य	पु पु पु ग म पु धु पु म ग म	पु पु पु ङु धु धु म पु धु	नि
मन्द्र			

१ २ ३ २ १ ५ ३ २ १

तार		सु
मध्य	धु पु म पु धु धु	नि नि नि पु वु नि नि धु पु वु
मन्द्र		

२ ३ २ १ २ ३ २

तार	सुसुस	सुरिसु	सुसुस
मध्य	निनिनि	धुनि	धुनिधुनि
मन्द्र			

१ २३ २ १ २ ३ २

तार	रुरुरि	सुरिगुरिसु	सु	रि रि रिगुगुगु
मध्य	नि	नि		
मन्द्र				

१ २३ २ १ २३ २

तार	सुरेगमगुरिसुरिगुगुगु	म.पुगु.सुरि.गुसु.रि
मध्य		
मन्द्र		

१ २ ३ २ १ २ ३ २

तार	सु	
मध्य	नि . ध्र . ५ निपु . ध्रुम . पुगु . सु रि . गु सु	
मन्द्र		

१ २ ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	गुम पुत्रुपु गुपुसुगुरिगु	सु . ५ रि गुम गु	
मन्द्र		नि	

जै . . . जै ना . रा . . . य ण हा . . . री  
२ १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	सु . ५ रि रि . गु गु	गुसुपुत्रु ५ पुनेध्रुपुसुगुरि	
मन्द्र	नि		

जै जै ना रा य ण हा . . . . . री . . .  
१ १ २ ३ २ १ . . . २ . . ३

तार			
मध्य	गु गुधुपु	गुपुसुगु रिगु	सु०५ रिगुसुगु
मन्द्र		नि	

जै . जै ना . रा . . . य ण हा . . री  
 २ १ २ ३ २ १ २३२

तार		
मध्य	सु . पु सुपुगुसु रिगु	सु रि गपुसुगुसु
मन्द्र		

जै जै ना रा य ण हा री जै जै ना रा य ण हा री  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		सु
मध्य	धु . धु धु धु धु धु धु पु धु ५ नि	५ नि धु
मन्द्र		

जै जै ना रा य ण हा री जै जै ना रा य ण  
 १ २ ३ २ १ २ ३

तार								सुसुसु
मध्य	△	सु	पु	नि	नि	नि	नि	पुधुनि
मन्द्र								

हा री जे      जै नारा य ण हा री जे ज नारा य ण  
 २      १      २      ३      २      १      ०      ३

तार	सु	ः	सुरे	सु	सु
मध्य			नि	धु	नि
मन्द्र					

हा री जे . . . जै . . . ना . . . रा . . .  
 २      १      २      ३      २

तार							
मध्य	गु	पु	सु	गु	रि	सु	रि
मन्द्र							नि

य . . . ण . . . हा . . . री आ . . .  
 १      २      ३      १      २

तार		
मध्य	रिसुरिगगगगग	रिगमममममगुमुपुपुपुपु
मन्द्र		

.....  
३ २ १ २ ३ २

तार		सुसुसुसु
मध्य	मुपधुधुधुधुपधुनिनिनिनिनि	धु नि
मन्द्र		

.....  
१ २ ३ २ १ २

तार	सु सुरिरिरिरिरि	सुरि गग गगगु रिगमग
मध्य	नि	
मन्द्र		

.....  
३ २ १ २ ३





तार		
मध्य	धुपम गुरि गग धुपु	गुपु मगु रिगु सु. ५
मन्द्र		नि

. री . . . . . जै . जै ना . रा . . . . यण  
 ३ २ १ २ ३ २

तार			
मध्य	रिगु मगु	स स गगु रिगु मगु रिगु	
मन्द्र	० ध ५ नि		

हा . . री जै जै ना रा यण हा . . री . .  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २ १ २

तार				
मध्य	० ग म	पप पुपु मु पुधु	पुम पंगु म ध ध ध	
मन्द्र				

जै जै ना रा यण हा . . री . . . . . जै जै ना रा य  
 ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३ २ १ ३ २

तार			सससुसुसु
मध्य	धुपधु५नि	धुपधु५नि	धु५
मन्द्र			

ण हा . . री . . जै जै ना रा य ण हा .  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार	सु. I.	सु रि रि रि रि सु रि गु मु रि गु .
मध्य	धु नि	
मन्द्र		

री . . जै जै ना रा य ण हा . . . . .  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २ १

तार	सु सु५सरि	सु	सु
मध्य	नि	५नि ५निधुपुपु	मुपुधु
मन्द्र			

री . . जै जै ना . रा . य ण हा . . . . .  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १

तार			
मध्य	५ नि धुप ० ग धुप ग प म ग रि ग	सु. ५	रि ग
मन्द्र		नि	

री . . . जै . जै ना . रा . . . य ण हा .  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १

तार			
मध्य	मू ग . सु. ५	रि रि . ग ग ग म पु धु ५ नि धुप	
मन्द्र	नि		

. री जै जै ना रा य ण हा . . . . री  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	मू ग रि ग ग धुप	ग प म ग रि ग	सु. ५ रि ग म
मन्द्र		नि	

. . . . जै . जै ना . रा . . . थ ण हा . .  
 ३ २ १ २ ३ २ १

तार				
मध्य	गु I	सुा	सुरिा	सु रि
मन्द्र		धु५नि	धु५नि	धु५नि

री आ . . . . .  
२३ २ १ २ ३ . . . . . २ १

तार			
मध्य	गु	सुरिगमु५	सुरिगमुप
मन्द्र	धु५नि	धु५नि	धु५नि

. . . . .  
२ ३ . . . . . २ १ . . . . . २ ३

तार		
मध्य	सु रि गु म पु धु	सुरिगमुपधुनि
मन्द्र		धु५नि
		धु५नि

. . . . .  
२ . . . . . १ . . . . . २ . . . . . ३ २ . . . . .

तार		सु.	
मध्य	सु रि गमपधुनि	सुरि गम पधु	सु
मन्द्र		धु ५नि	नि

.....  
 १            २    ३                    २            १

तार	रि	सुरिग
मध्य	सुरि गम पधु नि	सु रि
मन्द्र	धु ५नि	धु ५नि

.....  
 २                    ३            २    ३    १

तार	सु रिगम मगरिसु	सुरिसु
मध्य	गम पधु नि	नि ५नि
मन्द्र		

.....  
 २            ३                    २ १            २            ३

तार	सु	
मध्य	धु ५ निधुपधुनि	धुप सुप धुप सुग सुव सुग
मन्द्र		

.....  
 २                    १                    २                    ३

तार			
मध्य	<u>रिगम</u>   <u>गरिगरिस</u>	सुग धुप	गुपमगरिग
मन्द्र		५ नि	

..... जै . जै ना . रा . . .  
 २           १           २           ३           २           १           २           ३

तार			
मध्य	सु. ५   रिग सुग .	सु. ५   रि रि . गु गु	
मन्द्र	<u>नि</u>		<u>नि</u>

य ण           हा . .           री           जै जै           ना रा           य ण  
 २           १           २           २           १ २ ३ २

तार		
मध्य	गुमु पुधु ५निधु पमु गरिगु गुधुपु गुपुम गरि	
मन्द्र		

हा . . . . . री . . . . . जै . जै ना . रा . .  
१ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	गु सु.५ रिगु मंगु सु.५ रि.रि. गुगु		
मन्द्र	नि	१ नि	

. य ण हा . . री जै जै ना रा य ण  
३ २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	मु ५निधुपपुधुमपु गुपुम गरिगु सु५रिगु	
मन्द्र		नि

हा . . री जै . जै . ना . रा . . . य ण हा .  
१ २ ३ २ १ २ ३ २ १

तार			स
मध्य	मृग	शु. ५	रि रि . ग ग प ५ निधुपुधुपु
मन्द्र	१ नि		

. री जै जै ना रा य ण हा . री . . जै . जै  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १ ० ३ २

तार			
मध्य	गुपुमृगुरिगु	सु ५	रिगुमृग . सु ५ रि रि .
मन्द्र	नि		नि

ना . रा . . य ण हा . . री जै जै ना रा  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार		रिसु	
मध्य	ग ग ग	५ निधुधुपु	गुपुमृगुरिगु सु ५
मन्द्र			नि

य ण हा . . री . जै जै ना . रा . . य ण  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३ २



तार			मगुरिसुरि
मध्य	रिगु मगुं	सु.५	रिरि. गगु ग
मन्द्र		नि	

हा . . री जैजै नारा यण हा . री . जै .  
 १ २३ २ १२३ २ १२३ २

तार	सु		
मध्य	नि	५निधुपमगुरिसुं	सु५ रिगु मगु .
मन्द्र			नि

जै . ना . रा . . . . यण हा . . री  
 १ २ ३ २ १ २ ३

तार			पमगुसुरि सु
मध्य	सु.५	रिरि. गगु प	नि ५नि धु
मन्द्र	नि		

जैजै नारा यण हा . री . जै . जै . ना .  
 २ १२३ २ १२३ २ १

तार			
मध्य	पुमगुरिसु०	सु५	रिगुमगु. सु.५रिरि.
मन्द्र		नि	नि

रा . . . . य ण हा . . . . री जे जे ना रा  
 २ ३२ १ २३ २ १२३

तार			
मध्य	गुगु	गुमपुधु५	निधुपमगरिगुगुधु५गुपुमगुरि
मन्द्र			

य ण हा . . . . . री . . . . . जे . जे ना . रा . .  
 २ १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	गु	सु५	रिगुमगुगा गुपुमगरिसु
मन्द्र	नि		५निधु५नि

. य ण हा . . . . . री . . . . .  
 ३ २ १ . २३२१२ ३ २ . . . . .

तार			
मध्य	सुरिग ० सु	धुपमुगुरिसु	सुरिग म० पु ५ नि
मन्द्र		नि	

१ २ ३ २ १      २      ३      २ १ २      ३

तार			सु
मध्य	धुप मु गुरि सुरि	गु मु प ० धु	५ नि धुप मु ग
मन्द्र			

२      १      २ ३ २ १      २

तार		रि सु	
मध्य	रिग मुप धु ५ नि	५ नि धुप मु ग मु	पु धु
मन्द्र			

३      २      १ २ ३      २      १

तार	सु	ग	रिस	स०	सुसुसु
मध्य	५	नि ०		५	निधुप सुपधुनि
मन्द्र					

२ ३ २ १                      २                      ३ २ १

तार								
मध्य	५	नि	५	नि	५	नि	५	नि धुध धुप पपप सुसुसु गग
मन्द्र								

२                                      ३ २                                      १ १

तार									
मध्य	सु	ग	रि	रि	सुसु सुसु	सुसुसु	रि	रि	गग
मन्द्र									

३                      २                                      १                                      २                                      ३

तार		सुसुस सुसुसु
मध्य	मुमु मुपु पुपुधु धुधु निनिनि	नि
मन्द्र		

२ १ २ ३

तार		
मध्य	नि नि धु धु धु पुपु पुसुसु गगग रिरिरि सु	
मन्द्र		

२ १ २ ३ २

तार			
मध्य	सु सु सुरिरिगगसुसु ० गधुप गपुगुगुगु		
मन्द्र			

जै . जै ना . . . . .

१ २ ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	सु५	रि शु भु ग १	सु . रि रि . ग ग
मन्द्र	नि		नि

य ण हा . . री जै जै ना ग य ण  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार	सुरि गमपमगरि सु	
मध्य	गमपधु	५ नि भु पु भु ग रि सु
मन्द्र		

हा . . . . . री . . . . .  
 १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	१ ग धु प	ग पु म ग रि ग	सु १ रि ग म ग १
मन्द्र		नि	

जै . जै ना . रा . . . य ण हा . . री  
 ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	सु.५	रि रि रि रि रि	गु गु गु गु गु म म म म ध ध ध
मन्द्र	नि		

• जै जै ना . . . रा . . . य . . . ण .  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार			
मध्य	ध ध	म पु म पु म गु	रि गु ध ध गु प म गु रि गु
मन्द्र			

. . हा . . . री . . जै जै ना . रा . . .  
 २ १ २ ३ ५ १ २ ३

तार			
मध्य	सु५	रि गु म गु	सु.५ रि रि रि रि रि गु गु गु गु
मन्द्र	नि		नि

य ण हा . . री . . ना . . . रा . . .  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार	स		
मध्य	स ५ नि धु पु	स पु न पु पु न रि गु धु ग पु म	
मन्द्र			

य . ण . . हा . . रा . . जे . जे ना . रा  
१ २ ३ २ १ ७ ३ २ १ ६

तार			
मध्य	गुरिगु	सु. ५ रिगुमगु.	सु ५ रिरि रिरि
मन्द्र	नि	नि	

. . . य ण . हा . . री जे जे ना . .  
३ २ १ २ ३ २ १ २

तार		रि	
मध्य	गुगुगुगु	प ५ नि धु पु	स पु म पु म गु रि
मन्द्र			

रा . . . य . ण . . हा . . . री . .  
३ २ १ २ ३ २ १ २ ३



तार				
मध्य	गु धु पु	गु पु म	गु रि गु	सु. ५ रिगुम
मन्द्र			नि	

जै . जै ना . रा . . . य ण हा . .  
 २ १ २ ३ २ १

तार					सु रि
मध्य	गु	सु ५	रि रि रि रि रि	गु गु गु गु गु	पु धु
मन्द्र	नि				

री जै जै ना . . . रा . . य . . .  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार	गु रि सु		स	
मध्य	नि	५ नि धु .	नि धु पु गु धु पु	गु पु म
मन्द्र				

. ण . . हा . . . . री जै . जै ना . रा  
 २ . १ २ ३ २ १ २

तार			
मध्य	गुरिगु सु५	रिगुमगु१ सु.५	रिरिरि
मन्द्र	नि		

. . . य ण हा . . . री ज जै ना . . .  
३ २ १ २ ३ २ १ २

तार		सरिगुम५रि सु५	
मध्य	गुगुगुगुगुमपधु	नि	५निधु.
मन्द्र			

रा . . . य . . . ण . . . हा . . .  
३ २ १ ० ३ २ १ २

तार	स		
मध्य	५निधुपगवप	गुपमगुरिगु सु५	रिगुम
मन्द्र		नि	

. री . . . जै . जै ना रा . . . य ण हा . . .  
३ २ १ २ ३ २ १

तार			सुरि
मध्य	ग० सु० ५	रि० रि० रि० रि० ग० ग० ग०	गु० म० पु० वु०
मन्द्र	नि		

री . . . . . ना . . . . . रा . . . . . य . . . . .  
 २ ३ २ १ २ ३ २ १ २

तार	गु० म० पु० म० गु० रि० सु०	सु
मध्य	नि	५ निधु० निधुपु० गु० वु० पु०
मन्द्र		

. . . . . ण . . . . . हा . . . . . री . . . . . जै . . . . .  
 ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	गु० पु० म० गु० रि० गु० सु० ५	रि० गु० म० ग० सु० ५
मन्द्र	नि	नि

ना . रा . . . . . य ण हा . . . . . री . . . . . जै . . . . .  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	रि रि . ग ग	गुमु पुधु ५ निधुपमग रिगुगत्रुप
मन्द्र		

ना रा य ण हा . . . . . री . . . . . जै . जै  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार			
मध्य	गुपुमगुरिग	सु ५	रिगुमग = गमुपपपुपु
मन्द्र		नि	

ना . रा . . . . य ण हा . री . . . . . जै जै नाराय ण  
 १ २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३

तार				
मध्य	पु रि	रि मु . १ ग . रि मु		स ग ग . रि
मन्द्र			ध ५ नि	

हा . री . . . . .  
 २ १ २ ३ २ १ २ ३ २ २ १ २

तार			
मध्य	म . प . ग . म२ रि ग		स० रि ग म० प० ग०
मन्द्र			ध० णि

३ २ १ ० ३ २ १ २ ३ २

तार			
मध्य	म० रि ग० स० रि ग० म० प० ध० म० प० ग० म० रि . ग०		
मन्द्र			

१ २ ३ २ १ २ ३ २ १ २ ३ २

तार		
मध्य	स० रि ग० म० प० ध० म० प० ग० म० रि ग० स० रि ग० म०	
मन्द्र		

१ २ ३ २ १ २ ३ २

तार				रा
मध्य	५	नि०	ध०	म० प० ग० म० रि० ग० ङ० णि० मु० प० ध० नि०
मन्द्र				

१२ ३२ १२ ३२ १ २ ३ २

तार				स
मध्य	प० ध०	५	नि० म० प० ध० ग० म० रि० ग० म० स० रि० ग०	स०
मन्द्र				नि०

१ २ ३ २ १ २ ३ २ १२

तार	सु रि सु		सु
मध्य	नि	५	नि० ध० ५ नि० ध० ५ नि० ध० पु० ५
मन्द्र			

३ २ १२ ३ २

तार			
मध्य	ध्रुपुधु ऽनि धुपुमु	पु सुपुधुपुमुगु	सु गु सुपु
मन्द्र			

.....  
 १२३                    २                    १२३                    २                    १२३

तार			
मध्य	सुगुरि	गरिगुसुगुरिसु	सुरिगु सुपु धुनि
मन्द्र			

.....  
 २                    १२३                    २                    १२                    ३

तार	सुरिगुसुगु	रिसु
मध्य		निधुपुसुगुरिसुगुधुपु
मन्द्र		

.....  
 २                    १                    २                    ३                    २

तार			स . रि
मध्य	गुपु मगु रिगु	सु . य	रिगु मगु
मन्द्र		नि	

ना . रा . . . य ण    हा . . . री    जै    जै  
 १ २    ३ २    १    २३२ १ २

तार	सु		
मध्य	यनि .	ध . यनिप . धु	म . पुग . सु रि . गु
मन्द्र			

ना रा य    णहा री    जै    जै ना रा य ण  
 ३२ १ २    ३ २    १ २    ३ २    १ २

तार			
मध्य	सु	सुरिगुरि सु . य	सुरिगुमगुरिसु य सुरिगु
मन्द्र	नि		

हा री आ . . . . .  
 ३ २ १    २    ३    २    १



तार		
मध्य	सुपुसु गुरिसु . ५ सुरिगुसु	पु धु पुसु गुरि सु ५
मन्द्र		

.....  
२            ३            २            १            २

तार		
मध्य	सुरि गुसुपुधु ५ निधु	पुसु गुरि सु . ५ सुरि गुसु
मन्द्र		

.....  
३            २            १            २            ३

तार	सु	सु
मध्य	पुधुनि	५ निधुपुसुगुरिसु ५ सुरिगुसुपुधुनि
मन्द्र		

.....  
२            १            २            ३            २

तार	रिसु	सु
मध्य	५ निधुप मुग रिसु . ५ सुरि गुम पधुनि	
मन्द्र		

१ . . . . . २ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . . १ . . . . .

तार	रि गु रिसु	
मध्य	५ निधुपम गुरिसु . ५ सुरि गुम पधुनि	
मन्द्र		

. . . . . २ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . . १ . . . . . २ . . . . . ३ . . . . .

तार	सुरि गु मुग रिसु	
मध्य	५ नि धुपमु गुरि सु . ५ सु रि	
मन्द्र		

. . . . . २ . . . . . १ . . . . . २ . . . . . ३ . . . . . २ . . . . .

( ४९ )

तार	सुरि गु मु पु सु गुरि सु			
मध्य	गु मु पु धु नि			५ नि धु
मन्द्र				


.....  
१                      २                      ३                      ४

तार				
मध्य	पु मु गुरि सु . ५ १ गु धु षु			
मन्द्र				

.....  
१                      २                      ३                      ४

समाप्त.

# गांधर्व महा विद्यालय.



हेड ऑफिस:—सैंडहर्स्ट रोड,—बम्बई.

ब्रंच ऑफिस:—लाहोर,—नागपूर, नाशिक, कोल्हापुर.

गांधर्व महा विद्यालय यांन “ अकॅडमी आफ इंडियन म्युझिक ” यह विद्यापीठ गायनवादन नये सिखनेवालोंको अधया जिनका थोडा बहुत अभ्यास हुवा है ऐसे स्त्री पुरुषोंकेलिये और छोटे छोटे बालक बालिकाओंके लिये थोडेसे खर्चमें शास्त्रीय रीतीमें शिक्षण मिले इस हेतुमें सन १९०१ मे स्थापन करनेमें आया इसकी शाखा तथा उपशाखा लाहोर, नागपूर, नाशिक, अमदावाद, कोल्हापुर, बनारस, अलाहाबाद, देहली, जालंधर, हिसार, सिंध हैद्रावाद, पुना, ऐसे अनेक जगहोंपर है, इन सब शाखाओंमें हमारे नोटेशन अंकन रीतीपरसे गायनवादनका शिक्षण दिया जाता है, केवल बम्बईके विद्यालयमें नये गायनवादनके शिक्षक, ( उनका सब खानेपिनेका खर्च करके ) तयार किये जाते है इस समय उपदेशक ( ट्रेनींग ) क्लासमें पचास विद्यार्थी हमारे खर्चमें सिखते है. और उपर लीखीहुई शाखाओंमें काम करनेवाले सब शिक्षक तथा प्रोफेसर इसी उपदेशक क्लासमेंसे तयार हुवे है. हमारे विद्यालयसे आजतक हजारो स्त्री पुरुषोंने संगीत शिक्षणका लाभ लिया है और ले रहे है, यह विद्या सिखनेके लिये आसान होवे इस लिये अबतक नोटेशन सिस्टम (अंकनपद्धतीमें) **पंडित विष्णु दिगंबरजीने** चालीससे पचास पुस्तके लिखी है.

इन वि  
 डल वा  
 य 1  
 कन्य

**म्यु. विद्यालय इ. इ.**

**गांधर्व महा  
 र (ध.)**

इस कंपनीमें हर एक प्रकारके देशी लहवे, ताऊस, फिडोल, तबले, डंग, मृदंग, सारंगी, सरोद, हार्मोनियम, सिगल, डबल ड्रीबल तथा फोल्डींग) जलतरंग, बंसरी, अलगुज, तंबोरे-की स्वदेशीरीडके बनाये हुये तंबोरेका अवाज देनेवाले वाद्यके धौके हर एक प्रकारके तार, अथवा वाद्यको लगनेवाला हर एक सामान मिल सकता है. इसके अतिरिक्त ड्रीबल रीडके फोल्डींग (विष्णु दिगांबर फल्यूड, इस नामसे प्रसिद्ध हुये हुने) मको अत्यंत उपयुक्त हमारे कंपनीमें मिलिये. कौनसाही साल तो उसकी एक चतुर्थांश रकम पहले भेजने पड़ेगी. तत् पश्चात्

दुरुस्त करनेमें और अधिक ती गांधर्व महा प्रबन्धकार करेगी है. र पर गायनकी

न्ट सम्प्लाईंग कं. ई रोड, -बम्बई.

## संगीत शिक्षणकी प्राम्खिक पुस्तके.

इस विद्यालय में पं० विष्णु विनोदजीने संगीत विधापर आज तक जो किताब लिखि है उनके नाम और किमत.

	भाग	६	७	८	९
महिला संगीत हिंदी. (हिंदी)	१-२	०	१	०	०
संगीत सारदर्शक.	"	१	०	८	०
भक्ति अलंकार	"	१	०	८	०
संगीत शास्त्रप्रकाश हिंदी और उर्दू.	१-३	२	४	०	०
स्वरूपकाय भाष्यन. (हिंदी)	१-४	५	०	०	०
संगीत शास्त्रोपनिषद् हिंदी.	१-३	३	०	०	०
" (उर्दू)	१	१	८	०	०
राग प्रवेश. (हिंदी)	१-१६	१५	८	०	०
व्यायामके साथ संगीत.	"	१-२	१	०	०
संगीत प्रथम भाग १ का राम बिहारी ने ही ...	...	...	...	...	...
कल्याण ने ही सुवाली ४ था अरुण ने ही ...	...	...	...	...	...
साकंठक	...	१०	०	०	०
सुदय और सप्तमिणी पुस्तक "	"	१	०	०	०
सुतारकी पुस्तक.	"	१-२	३	८	०
नारदीय शिक्षा भाषा टीका समेत हिंदी	"	१	०	०	०
भजनाभूषण कवली.	१-५	२	८	०	०
भक्त प्रेम कवली	"	०	२	०	०
भजनावली.	"	०	२	०	०
राग नामावली.	"	०	२	०	०
परिपेक्षे रिपोर्ट सन १९१८ १९१९ से १९२०	"	१	१३	०	०
राष्ट्रीय संगीत	"	०	४	०	०

### रा० सुकथनकरकृत, (भारती)

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| १ रामप्रदावली     | ५ श्रीराम सुमदावली |
| २ श्रीरामप्रदावली | ६ श्रीराम रत्नावली |
| ३ रामगीतावली      | ७ श्रीराम भावनमाला |
| ४ रामसुकावली      |                    |

मनेजर—

॥ श्रीगुरु वृक्ष प्रत्यक्ष ॥

# राग प्रवेश.

ॐ भाग १७ वा. ॐ

संपादक, मुद्रक, और प्रकाशक.

श्रीमान् पंडित विष्णु दिगंबर पल्लुस्कर.

गायनाचार्य, मास्टर ऑफ इंडियन म्युजिक, मिन्सिपोल,

मोहरी, अहा, विन्सायल, अमेरिकी संघ राज्य.

क कर्तव्ये

॥ स्वया.

क कर्तव्ये





॥ श्रीराम प्रसन्न. ॥  
**राग मुलतानी.**

इस रागमें रे, ग, ध्र, अतिकोमल मध्यम त्रिव्रतर आरोहमे रे, ध्र,  
 वर्ज. बाकी सब शुद्ध स्वर.

ताल झुमरा.

:0:

तार		
मध्य	१गुमुपमुगु.रिसु रिसुरि	ससस
मन्द्र		नि. १नि

ये . . गो . कु ल गा . . . व को जो  
 २ १ २ ३

तार		
मध्य	स.मगुमुपु	पु.१पुधुधुमुपुIसंगु मगु
मन्द्र		

रा . . . . रे . . . . .  
 २ १ २ ३

तार		
मध्य	१गुमुपमुगु.रिसु	४पुधुधुमुपमुगुमु.
मन्द्र		

ये . . . गो . कुल व . . . . .  
२ १२ ३

तार	स	१	सु
मध्य	गुमुपुमुपुपु	नि	निधमगरिसुरि
मन्द्र			नि

. . . रसानेकी . ना . . . . .  
२ ६ २ ३

तार		
मध्य	सुसु	सुगुमुपुधुधुमुपुमुगुमुपुमुगु.रिसु
मन्द्र	१नि	

. र ष . . . . . गो . कुल  
२

तार	सु I सुसु   सु११ सुरि रि
मध्य	१. प प ग म प      नि      नि
मन्द्र	

इ न दो ऊ आ न . . मी ले मोह ली या  
 १ २ ३ १ २

तार	स सु      स. सु.
मध्य	नि नि षु पु प धु म पु ग म पु      नि
मन्द्र	

. . . रे . भ . ई . स दा र . . .  
 ३ २

तार	सु. ५ ग. गु सु रि सु. ५
मध्य	नि नि षु म पु म गु सु रि
मन्द्र	

ग ने . हा . . . . .  
 १ २ ३

तार	
मध्य	सुसु सुग मुप धुधु सुपुम गमुपु सुगु .
मन्द्र	नि १ नि

.. ल ए ..... गो .  
२

तार	
मध्य	रिसु * * ट रि सुगु मुपु सुगु . रिसु
मन्द्र	नि

कु ल आ . . ए . . गो . कु ल  
१ २ ३ २

तार	
मध्य	सुसुगुसुरि सु . ५गुमुपुसुगु . रिसु
मन्द्र	* ट नि नि

१ २ आ . . . . . ए . . गो . कु ल  
३ २

तार	
मध्य	स म ग म प् पु धु मु प म् ग म् ग् गु
मन्द्र	*१. नि

आ . . . . .  
 १ २ ३ २ १ २

तार	
मध्य	मु धु गु म् ग् रि सु . १ गु मु प् मु ग् . रि सु
मन्द्र	नि

. . . . . ए . . गो . कु ल  
 ३ २

तार	
मध्य	स म ग म् प् पु धु मु प म् ग म् ग् गु म्
मन्द्र	* * * १ नि

आ . . . . .  
 १ २ ३ २ १ २

तार		
मध्य	पुनिः ध	मुपु. पुधुमुपु सुगु सुगु गुमु धुगु मु
मन्द्र		

१

२

३

तार		
मध्य	गु रि सु . गुमुपु सुगु . रि सु	सुसग
मन्द्र	नि	१. नि

ए . . गो . कु ल

आ . . .

२

१

२

तार		
मध्य	मुपु . पुधुमुपु सुगु	सुगु गुमुपु निः ध मु
मन्द्र		

३ २

१ २

३

( ७ )

तार	सु	I	सु. I रि	सु.
मध्य	पु. I A गु	मुपु	नि	नि निध
मन्द्र				
	२	१	२	३

तार			
मध्य	पमुपु . A पुधु	मुपु सुगु	सुगु १ . ५ गु म धुगु .
मन्द्र			
	२	१	२

तार		
मध्य	सुगु रि	सु. A गुमु पुमुगु . रि सु
मन्द्र	नि	* १ नि
	२	१२

... ए . . गो . कु ल आ  
३ २ १२

तार		
मध्य	स म ग म प .	पुधुमुप मृगुम गृगुमु पुनि १.
मन्द्र		

३ . . . . . २ . . . . . १ . . . . . २ . . . . . ३

तार		स . सु . ग रि सु
मध्य	धुमुप . IT	गुमुपु नि नि नि
मन्द्र		

२ . . . . . १ . . . . . २ . . . . . ३ . . . . . २

तार	स म	ग रि	सु रि	सु .
मध्य		नि	नि	नि धु मुपु मु गृ १-५
मन्द्र				

. . . . . १ . . . . . २ . . . . . ३



तार	स ५	
मध्य	गु मु पु नि धुमु पमु गु मगु. ५गमधुगु.	
मन्द्र		

.....  
 २ १ २

तार		
मध्य	मगरि सु. १ गुमु पुमुगु . रिसु	सु
मन्द्र	नि	१. नि

..... र . गो . कु ल आ .  
 ३ २ १ २

तार	सु	
मध्य	गु मु पु नि धुमुप मुगु गुमु धुगु मगु रिसु	
मन्द्र		

.....  
 ३ २

तार		सुगु . णि
मध्य	गु मुपु सुगु . णि सु	सुगुमुपुणि
मन्द्र		णि

ए . . . गो . कु ल आ . . . . .  
 १ २

तार	सु	
मध्य	णि निधुमुपुसुगु . गुमुधुगुमु गुणिसु गुमुपु	
मन्द्र		

. . . . . ए .  
 ३ २

तार		सुमुगुणि
मध्य	सु गु . णि सु	सुगुमुपुणि णि
मन्द्र		णि

गो . कु ल आ . . . . .  
 १ २

तार	सु५
मध्य	निधुमु पमुगु . गमु धुगु मगु रिसु गुमुपु
मन्द्र	

..... ए . . .  
 ३ . . . २

तार		सुमु गु५पुमगु
मध्य	मुगु . रिसु	सुगु मुपु नि
मन्द्र		नि

गो . कु ल आ . . . . .  
 १ . . . . . २

तार	रि	सु
मध्य	नि	नि धुमु पमु गगु मधु गमु गरिसु
मन्द्र		

.....  
 ३ . . . . . २

तार			
मध्य	गुमुपुमगु.रिः	५५५.रि	सुमगु.रि
मन्द्र		नि	नि

ए . . गों . कु ल आ . . . . .  
 १२३ २ १

तार			
मध्य	सुपु धुमपुमगु.रि	सुनिधुमुपुमगु.रि	
मन्द्र		नि	नि

. . . . .  
 २ ३ २

तार	सुरि सु		गु.गु
मध्य	सु.५ नि नि	धुमुपुमगु.रि	सु
मन्द्र			नि

. . . . .  
 १ २

तार	सुरि सु.	१पुधुमु
मध्य	नि निधुमुपुसुगुरि सु.५	
मन्द्र		नि

..... ३ २ .....

तार	पु.सुगुरि सु.	
मध्य	नि निधुमुपुसुगुरि सुसु	
मन्द्र		नि

..... १ २ .....

तार	सु	
मध्य	सुगु.पुमु.धुपु. निधु.धुपु.पुमु.सुगु.	
मन्द्र		

..... ३ २ .....

तार		
मध्य	गुरि . रिसु . सुपु . सुगु . रिः	रिसु .
मन्द्र		१ . नि

... .. ए . गो . कु ल आ . .  
१ २

तार	सु	रिसु . गु . गुरि रि
मध्य	सुगु . पुसु . धुपु . नि .	
मन्द्र		

... .. ३

तार	सु . सु	
मध्य	नि . निधु . धुपु . पुसु . सुगु . गुरि . रि	
मन्द्र		

... .. २

तार		
मध्य	सु . सुप . सुगु . रिसु	रिसु . सुगु . पु
मन्द्र		र . नि

ए . गो . कुल आ . . . . .  
१

तार	सु	रिसु . सुगु . गुरि . रिसु . सु
मध्य	सु . धुप .	नि .
मन्द्र		

. . . . .  
३

तार		
मध्य	नि . निवु . धुप . पुस . सुगु . गुरि . रिसु . सु	
मन्द्र		

. . . . . ए  
२

तार		सु॥ सुसु
मध्य	पु. सुगु. रिङ्गु	१. पपशमप नि
मन्द्र		

गो . कु ल . इ न दो ऊ आ न . मी  
१ २ ३ २

तार	सु. सु.	सु॥
मध्य	नि धु सुप सुगु सुगु १गुमुप	१पुपु
मन्द्र		

ले आ . . . . . इ न  
१ २ ३ २

तार	सु सु. सुसुसु.
मध्य	गुमुपु नि नि धु सुपु. सुगु
मन्द्र	

दो ऊ आ न . . . . . मी ले आ . . . . .  
१ २



तार	सुगु . रिसु	
मध्य	सु गु १ गु मु पु नि	नि धुमुप सुगु .
मन्द्र		

. . . . . ३ . . . . . २

तार	सु	सुसु सु सु .
मध्य	गु मु पु पुप गु मु पु	नि धुमुप ५
मन्द्र		

. . . . . इ न दो ऊ आ न मी ले आ . . . . . १ २

तार	सु सु रि सु सु मु		
मध्य	सु गु सु गु १ गु मु पु	नि	नि नि
मन्द्र			

. . . . . ३ . . . . . २

तार	गु५. रि स	सु सु गु पु सु गु रि	सु गु
मध्य		नि नि	नि
मन्द्र			

१

तार	सु रि स	सु
मध्य	नि	नि सु पु सु गु म. गु गु सु पु
मन्द्र		

३



२

तार	सु सु.सु	
मध्य	पु पु गु म पु नि	स सु गु पु म पु
मन्द्र		*नि

इ न दो ऊ आ न . . मी गा . . . . .

तार	
मध्य	पु पु पु सु गु . सु गु . प पु पु सु पु धु धु सु पु सु गु .
मन्द्र	

व को छो . . रा . . रे बर . . सा . ने .  
 २ १ २

तार	
मध्य	सु सु गु . पु सु . धु पु . नि धु सु पु सु गु . सु गु . सु
मन्द्र	

की . . . . . ना . . . . .  
 ३ २

तार	
मध्य	पु पु सु गु . रि सु * रि सु सु सु गु रि सु .
मन्द्र	नि

. र गो . कु ल गा . . व को . . .  
 १२ ३

तार	
मध्य	सुगु सुप <sup>१</sup> सुगु <sup>२</sup> . सु गु . प <sup>१</sup> ध्रुप <sup>२</sup> ध्रुसुप <sup>१</sup> सुगु <sup>२</sup> . I
मन्द्र	नि

लो . . . . रा . . . . रे ब र सा . . ने .  
२ १ २

तार	स
मध्य	गुसपनि <sup>१</sup> निधु <sup>२</sup> . निधु <sup>१</sup> . पु . सुगुसप . पु सुगु .
मन्द्र	

की . . . . सा . . . . र गो .  
३ २

तार	
मध्य	रि सु सुगुसपसुगु . सुगु . पुप पु सु
मन्द्र	५५ . नि

कु ल ए . . . . गा . व को लो  
१२३ २ १

तार	
मध्य	पु०० सु पुवुपुसुगु . गुसुपु नि५वुपुसुगुसुपुनि .
मन्द्र	

रा . . रे . वरसा . ने . . . . .  
 ० ३

तार	सु	
मध्य	वु नि निधु पसु गुसुपु . पुसुगु . रि सु * * *	
मन्द्र		

की . . . ना . . . . . रगो . कु ल  
 २ १२३२

तार		
मध्य	रि सु ५५सुगु . ५रि सुसु सुसु	
मन्द्र	नि नि नि . नि नि	

गा . . व को छी . रा . . रे वरसा  
 १ २

तार	
मध्य	गप पध सुपु मुगु सुसुगु . पुमु धुपु . नि धुपु .
मन्द्र	

. . ने की . . . . ना . . . . .  
३ २

तार		
मध्य	सुगु . रि सु . सुसुगु . रि सु * * . असुगु	
मन्द्र	नि	

. . . . र गो . कु ल गा . .  
१२३ २

तार		
मध्य	पुमु पु प पुपुमुधुपुमुगु . षुगुमु पुनि	
मन्द्र		नि .

. . . व को छो . रा . रे . व र सा . ने  
१ २

तार	स
मध्य	सु सु गु . पु म . ध्रु प . नि ध्रु म पु ग सु प व म ग .
मन्द्र	
की . . . . .	ना . . . . . र गो .
३	२

तार	
मध्य	रि सु सु सु गु सु पु नि . १ नि ध्रु सु पु म ग
मन्द्र	* १ १ नि
कु ल	गा . . . . . व को . . . . .
१२	३ २

तार	सु I I सु . स सु गु . रि
मध्य	गु म पु नि १ नि नि नि
मन्द्र	
छो . रा . . . . . रे व र सा . . . . . ने	
१	२ ३

तार	सु० सु०
मध्य	निधु. निधुमुपमगुमुपमगु.रिसु
मन्द्र	

की . . . ना . . . र गो , कु ल  
२

तार	
मध्य	५१. सरि सु सगगरिस सगमप
मन्द्र	नि नि नि

आ . . . . .  
१२ ३

तार	
मध्य	धप मग मम गरिस सगमप मगु.
मन्द्र	नि

. . . . . गो  
२



तार	
मध्य	रि सु ✽ अ रि स स ग ग रिस स
मन्द्र	नि नि नि

कु ल आ . . . . .  
१२

तार	
मध्य	ग मप धप मग म प नि नि ध प मग म प ध
मन्द्र	

३

तार	
मध्य	पमग मम ग रिस स ग म प म ग . रिस
मन्द्र	नि

. . . . . गो . कु ल  
२

तार	
मध्य	स्रिसरि स स ग गरिस सग सपधप
मन्द्र	नि नि नि

आ . . . . .

१

२

तार	सरिस
मध्य	सगसप निनिधप सगसपनि निधप
मन्द्र	

. . . . .

तार	
मध्य	स ग स प नि निधप सग सप धपस गस स
मन्द्र	

. . . . .

३

तार		
मध्य	ग॒ रि॒ स॒	स॒ ग॒ म॒ प॒ म॒ ग॒ . रि॒ स॒ रि॒ स॒
मन्द्र	नि	नि
. . . . . गो . कु ल आ . . . .		
२		१

तार		
मध्य	स॒ ग॒ ग॒ रि॒ स॒	स॒ ग॒ म॒ प॒ ध॒ प॒ म॒ ग॒ म॒ प॒ नि
मन्द्र	नि	नि
. . . . .		
२		

तार		स॒ रि॒ स॒	स॒ ग॒ ग॒ रि॒ स॒
मध्य	नि॒ ध॒ प॒ म॒ ग॒ म॒ प॒ नि	नि	नि
मन्द्र			
. . . . .			

तार	रिस
मध्य	निधपमगमपनि निधपमग मपधपम
मन्द्र	

३

तार	
मध्य	गममगरिस सगमपमगु.रिस
मन्द्र	नि

गा . कु ल

२

तार	
मध्य	सस्रिस स सगगरिस सगमप
मन्द्र	नि नि नि

आ .

१२३

२

तार		स॒ रि
मध्य	ध॒प॒ज॒ग॒ म॒प॒नि॒ नि॒ ध॒प॒ज॒ग॒ म॒प॒नि॒	नि
मन्द्र		

१

तार	स॒ स॒ ग॒ग॒ रि॒स॒ स॒ग॒म॒प॒ज॒ग॒म॒ग॒रि॒स॒
मध्य	नि॒ नि॒ नि
मन्द्र	

आ

२

तार	स॒ग॒ग॒रि॒स॒ रि॒स॒ स॒
मध्य	नि॒ नि॒ध॒प॒ज॒ग॒म॒प॒नि॒ नि॒ध॒
मन्द्र	

तार	
मध्य	पमगमपनि निधप मगम पधप मगम मग
मन्द्र	

३

२

तार		
मध्य	रि स सगमप ० मुगु . रि सु * * * रि <sup>१</sup> स <sup>२</sup>	
मन्द्र	नि	नि

गा . कु ल

आ .

१ २ ३

२

तार		
मध्य	मुगु . रि स	सुगुमुपुमुगुरि स <sup>२</sup> नि <sup>३</sup> धुपु
मन्द्र	नि	नि नि

१

२

तार				
मध्य	मृ०गृ०	सं१	सु०गु०मु०पु०नि०	ध्रु०पु० मृ०गृ०
मन्द्र		नि०	नि०	नि०

.....

तार	सं१			सं१
मध्य	सं२	नि०ध्रु०पु०मृ०गृ०	सं३	सु०गु०मु०पु० नि०ध्रु०
मन्द्र			नि०	नि०

.....

तार		गु०रि०सु०	
मध्य	पु०न० गृ०	सं३	नि०ध्रु०पु०मृ०गृ० सं१
मन्द्र		नि०	नि०

.....

तार	सुगुं.रिसु	
मध्य	सुगुसुपुनि	निधुपुनगुरि सु
मन्द्र	नि	नि



३

३

तार		सुI सुसु
मध्य	सुगु.रिसु	प प ग म प नि
मन्द्र		

गो . कु ल इ न दो ऊ आ न . . मी  
१ २ ३ २

तार	सु११
मध्य	१ ग सु पु नि धु सु पु सु गु . रि सु १ पु पु
मन्द्र	

ले इ न दो ऊ आ . . न . मी ले इ न  
१ २ ३



तार	सु. सुसु	सु११	सुगुरिसु
मध्य	गु म् पु	नि	गुमुपुनि नि
मन्द्र			

दो ऊ आ न . . . मी ले इन दो . . . ऊ . . .  
 २ १ २

तार	ससा	सु.सुसु
मध्य	धपमगमपनि	नि धुप.मुगु.०मु
मन्द्र		

आ . . . . . न . . . मी ले इ . न . दो  
 ३ २

तार		
मध्य	गु.मुधु	गुरिसु.० सुगुमुपुनिनिनिधु.
मन्द्र		नि

. . . . ऊ . आ . . . . . न मी .  
 १ २

तार	सु सु.सु	सु सु.सु सु.सु
मध्य	नि	पुपुगुमपु नि
मन्द्र		

. . . ले इ न दो ऊ आ न . . . मी ले  
३ २ १

तार	सुगुगुरिसु	रिसु
मध्य	गुमुपुनि	नि निधुपुसु गुमुपु
मन्द्र		

आ . . . . .  
२ ३

तार	सु सु.	सु सु.सु
मध्य	नि नि	पुपुगुमपु नि सु.सु
मन्द्र		

. . . . . इ न दो ऊ आ न . . . मी ले  
२ १२३

तार	
मध्य	पुधुपमगमगरिसु सुगुम पुधुम पुगुम पुनि
मन्द्र	नि

आ . . . . .  
२

तार	सु	सुरि सु सुगुगरिसु
मध्य	निधुपमगमपुनि	नि नि
मन्द्र		

. . . . .  
१ २

तार	सु रि सु	सु. I सु५
मध्य	नि नि निधुपमगमपुनि	नि
मन्द्र		

. . . . .  
३

तार	सु सु.सु	सा
मध्य	० पुपु गुमुपु नि	पुपु पुमु गुमुगु
मन्द्र		

इ न दोऊ आन . . मी ले आ . . . . .

२

१ २

तार	
मध्य	रिसु सु गुमुपुधुपुमुगुमुपुनि नि धुपु मुगु
मन्द्र	नि

३

२

तार	सरि सु सुगुगुरिसु सुगुमुपु
मध्य	मुपुनि नि नि नि
मन्द्र	

१

तार	सुगुगुगुरिसु	सुगुगुरिसु	रिसु
मध्य		नि	नि निवुपुमगु
मन्द्र			

तार	सु सु५	सु सु.सु
मध्य	मुपुनि नि १पुपुगुमुपु	नि
मन्द्र		

इ न दोऊ आ न . मी  
३ २

तार	सु.१	सु सु सुगुरि सु
मध्य	पुपुगुमुपु	नि नि नि नि
मन्द्र		

ले इ न दोऊ आ न मी ले मो ह ती या . . .  
१ २

तार	सुसुगुरिसु	
मध्य	धुसुपुपुगुमुपु	निधुपुमुगु
मन्द्र		

र . . भई सहार . गने हा . . . . .  
 ३                      २

तार		
मध्य	सुपुपुमुगु.रिसु	*पुधुधुसुपुमुगुमु.गु
मन्द्र		

. . ल गो . कु ल ब . . . . .  
 १२                                      ३

तार	
मध्य	सुपुपुपुमुगु.पु.पुधुसुपुमुगु.पु
मन्द्र	

. . र आ . . . . .  
 २

तार	
मध्य	स ग म प त्र ज व न ग त्र पु . ५ नि ध्रु प सु ग तु
मन्द्र	नि
	१ २

तार	
मध्य	पु . ५ ग म प नि ध्रु ध म प त्र ग पु . ५ तु सु ग .
मन्द्र	
	३ २

तार	
मध्य	पु म . ध्रु प . नि ध्रु प . सु ग   पु . ५ नि ध्रु सु पु ५
मन्द्र	
	१

तार	
मध्य	सुगु सुपु५ सुगुसपनिधुपु सुगु सुपु५सु
मन्द्र	नि

२

३

तार	
मध्य	सुगु१.पु१.सुगु२पु१.सुगु२ निधुपु.सुगु२पु१.५
मन्द्र	

२

तार	
मध्य	सुसुगु५ पुसुपु१.सुगु२पुपु१.सुगु२धु१.पुसु२
मन्द्र	

१

२



तार	सुं.
मध्य	नि० धुपं नि० धुपं सुगं पं . ५५ ५५ ५५ ५५
मन्द्र	

३

५

तार	सुं.	सु००
मध्य	गुमं . ५ गुं पं पं धु	सु गु सु प
मन्द्र		नि

२ सा ने की . आ . . . . . २

तार	
मध्य	नि० धुमु पंम गुम पुनि . धुमु पुगु गु सुप . सुगु
मन्द्र	

३

तार		
मध्य	रिस्रगुमुपुमगु.रिस्र	सुगुमुपुनि
मन्द्र		५.५.५.नि

... ए . . गो . कु ल आ . . . .  
 २ १ २ ३ २

तार	सुगु.रिस्र	सु.१
मध्य	निधुमुपु.५मुगुमु	निधुमु
मन्द्र		

.....  
 १ २

तार		
मध्य	पुमुगुमुपुनि.१धुमुपुमुगुमुपुमुगुरिस्रगुमु	
मन्द्र		

..... ए .  
 ३ २

तार		सुगुमुपमगु
मध्य	पुमुगुरिसु	सुगुमुपुनिसु
मन्द्र		नि

. गो . कु ल आ . . . . . १ . . . . . २

तार	रिसु	सुगु १ रिसु
मध्य	नि धु मुपु मगु मुपु नि	नि धु
मन्द्र		

. . . . . ३ . . . . . ४

तार		सु.१
मध्य	मुपुमु गमु पु	नि धुमुपु ५ मु गमु पुनि .
मन्द्र		

. . . . . १ . . . . . २ . . . . .

तार	
मध्य	गुगु गुगुगु गुपु . मगुगुरि सगुगु पगुगु . रिसु
मन्द्र	

..... ए . गो . कु ल .  
 ३ २

तार	सगुरिसुरिसु
मध्य	सगुसगुगु गुगुपगुपु नि पुनि
मन्द्र	नि

आ . . . . .  
 १ २

तार	सु
मध्य	नु नुधुनिधुपधुपमधुमगुगुरेगुरिसु सु
मन्द्र	नि

.....  
 २

तार	सग रि स	
मध्य	ग ङ य नि	नि ध प म ग रि स म प .
मन्द्र		

..... गा .

तार		सरि	स प ध म प
मध्य	रि ङ	सरि	स प ध म प नि
मन्द्र		नि	

कु ल वा .....

तार	स ग रि स	स ग ग रि स
मध्य	नि ध प म ग ङ य नि	नि ध
मन्द्र		

.....

तार	सरिस	स
मध्य	पम गम पनि	निधपमगमपनि नि
मन्द्र		

३

तार	
मध्य	धपम गमप धपमगमगरिस ष मुगु . रिसु
मन्द्र	

गो . कु ल

२

तार	सुसु सुगरिससु
मध्य	१ . सुं मुं गुं मुं पुं पुं पुं नि नि
मन्द्र	

गो कु ल गा . व को छो रा रे व रसा ने . की

१ २

३

तार	सरि रिस	
मध्य	नि धप मग सप नि	निध पम गम
मन्द्र		
. ना . . . . .		
२		

तार		
मध्य	पध पम गम पपमुग. रिस	पधम
मन्द्र		
. रगा . कु ल गा ..		
१२३ २		

तार		
मध्य	पम गरिस सने. धपमग मगरिस	
मन्द्र	नि	नि
. व को छे . . . . .		

तार		सरि रिस
मध्य	स १	सगमपधपमनमपनि
मन्द्र	नि	

रा र . . . . . २  
१

तार	स	स ग ग रिस	स १
मध्य	नि	नि	सग मपम गरिस
मन्द्र			

. . . . . व र सा . . . . . न . . . . .  
३

तार	समगरिस	सरिस
मध्य	नि	निधपमगमपनि
मन्द्र		निध

. . की . ना . . . . .  
१



तार		सु
मध्य	पम गम पम गु . रि सु	* * * गम पनि
मन्द्र		

... र गा . कु ल गा . . . .  
१ २ ३ २

तार	ग ग रि स	स स स स रि स
मध्य	नि ध प म ग म प नि	
मन्द्र		

... . . . . व को छो . .  
१

तार		
मध्य	नि ध नि ध प प ध प म ग म ग रि	सु स व व
मन्द्र		नि

. रा . . . रे . . . . . व .  
२

तार	१२ रि स स ग ग रि स	
मध्य	प प नि नि ध ध	नि ध प स
मन्द्र		

र सा . ने . की . ना . . . . .  
२

तार	स रि रि स	
मध्य	ग ल प नि	नि ध प स ग ग प प म ग .
मन्द्र		

. . . . . र गा .  
२

तार		स ग म प ळ म ग
मध्य	रि ङ	स ग म प नि नि
मन्द्र	✱ ट	नि

कु ल प . . . . . गा  
१२ ३

तार	रिस	सग रिस
मध्य	निधपत्रगरिस	सगतपनि
मन्द्र	नि	

२

तार		
मध्य	निधपत्रगरिस	सग. रिस * * * पधप
मन्द्र		

..... गो . कुल आ . .

१२३०

तार		
मध्य	पधप	सगत्र पधप पधप सगत्र पधपसग
मन्द्र		

१

तार	
मध्य	मप निनिध पनिनिधए निनि धपनि निधप
मन्द्र	

२

तार	
मध्य	निनि धए ध धरु परुग रुपध प धप मगम
मन्द्र	

३

तार	
मध्य	पधमप पधपम गमपधपमपधपम गमपध
मन्द्र	

२

तार		
मध्य	मप गममग मपधमपग ममगरिस	स ॥
मन्द्र		नि

.....

१

तार		स
मध्य	सग मपनि निनिनि निनिनि पनि नि	
मन्द्र	नि	

.....

२

तार		स
मध्य	धप मग म ग रिस स ॥ सगमपनि	
मन्द्र		नि नि

.....

तार	गग गगग गगग रिस
मध्य	निध पम गमपनिनि
मन्द्र	

२

तार	
मध्य	निनि निनिनि धपमगमपधपमगरिमगरि
मन्द्र	

तार		सगमपप पपप
मध्य	स स	स ग म प नि नि
मन्द्र	नि नि	

तार	पमगरिस ~~~~~	सग गग गग ~~~~~
मध्य	निधपम गम पनि ~~~~~	
मन्द्र		

२

तार	गग रिस ~~~~~	
मध्य	निधपम गमप निनिनि नि निनि ~~~~~	
मन्द्र		

३

तार		
मध्य	धप मगमप पपप पपमग रिस सु. मुगु. ~~~~~	
मन्द्र		नि

गौ.

२.

स.


तार	सु सु पु नि	नि ध प म ग रि स
मध्य	नि	नि ध प
मन्द्र		

३

तार	सा
मध्य	म ग ग म प नि नि ध प म ग म प म ग. रि स
मन्द्र	

गो . कु ल

२





# शिक्षण

द्वय ऑफिस— केंद्रस्ट्री रोड, चम्बई.

व ऑफिस— अहोरा, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर.

विद्यालय में गायनवादन (तबला, हारमोनियम, दिखुवा, मडक, वगैरे) सीखने की व्यवस्था है शिक्षण १० और सायंकाल

नि

पने

था

हां

र